



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 10, 2004—जुलाई 16, 2004 (आषाढ़ 19, 1926)  
No. 28] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 10, 2004—JULY 16, 2004 (ASADHA 19, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 1

### [PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के  
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएँ]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public  
Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of  
the Government of India]

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 23 जून 2004

सं. 2/16/04/213-प्रशासन--केन्द्रीय सतर्कता आयोग एतद्वारा आयोग में निजी सचिव श्री एल. सी. साङ्गानी को प्रधान निजी सचिव के पद पर वेतनमान रु. 10,000-325-15,200/- में तदर्थ आधार पर दिनांक 17.06.2004 (पूर्वाह्न) से तीन माह की अवधि अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

मंगे लाल  
उप सचिव (प्रशासन)

(एन.एफ.एस.जी.), (आई.आर.एल.ए.-1609), ग्रुप केन्द्र, के.रि.पु. बल, इम्फाल ने दिनांक 01.06.2004 (पूर्वाह्न) को अपने पद से कार्यभार त्याग दिया। तदनुसार उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 01.06.2004 (पूर्वाह्न) से निकाला जाता है।

जे. एन. शर्मा  
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-I)

(महानिदेशालय, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 22 जून 2004

गृह मंत्रालय  
(महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 18 जून 2004

सं. ओ.प्रो-1066/77-सीआरसी (एम.ओ.)--सरकारी सेवा से स्वैच्छिक-सेवानिवृत्त होने संबंधी नोटिस दिनांक 04.03.2004 के स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप डॉ. कपिल भल्ला, मुख्य चिकित्सा अधिकारी

सं.ई-28017/5/अधि.से.नि./डीडी घोष/03/कार्मिक-2/1362--अधिवर्षित की आयु पूरी होने पर श्री डी. डी. घोष उप कमांडेंट, सरकारी सेवा से दिनांक 31.05.2004 (अपराह्न) को सेवानिवृत्त हो गए हैं तथा उन्होंने के.ओ.सुब इकाई, ए.टी.पी.पी. अनपारा (उ.प्र.) का पदभार छोड़ दिया है।

ह./- अपठनीय  
महानिदेशक/के.ओ.सुब

दिनांक 25 जून 2004

सं. ई-28017/5/अधि.से.नि./जीएसजेहल/04/कार्मिक-2/1384--अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर श्री जी. एस. जेहल, वरिष्ठ कमांडेंट, सरकारी सेवा से दिनांक 31.5.2004 (अपराह्न) को सेवानिवृत्त हो गए हैं तथा उन्होंने के.ओ.सुब समूह मुख्यालय, चण्डीगढ़ का पदभार छोड़ दिया है।

ह./- अपठनीय  
महानिदेशक/के.ओ.सुब

सं. ई. 16013(1)/1/यूके/04/कार्मिक-1/1388--केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में प्रतिनियुक्ति आधार पर श्री उमेश कुमार भापुसे (ए.एम. : 84) ने के.ओ.सुब मुख्यालय, नई दिल्ली में 07.06.2004 (पूर्वाह्न) को रिपोर्ट किया तथा तदनुसार बल मुख्यालय, नई दिल्ली में उप महानिरीक्षक (अग्नि) के पद पर कार्यभार संभाल लिया है।

ह./- अपठनीय  
महानिदेशक/के.ओ.सुब

वित्त मंत्रालय  
(आर्थिक कार्य विभाग)  
चलार्थ पत्र मुद्रणालय

नासिक रोड, दिनांक 19 जून 2004

सं. 15/एस-ईएससी-1-10--श्री एच. एस. अहिरे (अ.जा.), निरीक्षक नियंत्रण, को उप नियंत्रण अधिकारी (वर्ग 'ख' राजपत्रित) के पद पर स्पष्ट रूप से तदर्थ आधार पर रु. 6500-200-10500/- के वेतनमान में दिनांक 12.06.2004 से 11.12.2004 तक अथवा नियंत्रण अधिकारी का पद भरे जाने तक, जो भी पहले हो, पदोन्नत किया जाता है।

उक्त तदर्थ पदोन्नति पदोन्नत कर्मचारी को स्थाई नियुक्ति के लिए दावा अर्जित नहीं कराती और उनके द्वारा की गई तदर्थ सेवा उस श्रेणी में वरिष्ठता पदोन्नति की पात्रता आदी के लिए गिनी नहीं जाएगी। उक्त पदोन्नति कोई भी कारण दर्शाए बिना समाप्त की जा सकती है।

अ. ना. इंगले  
महाप्रबंधक

(प्रतिभूति कागज कारखाना)

होशंगाबाद (म.प्र.)-461 005, दिनांक 22 जून 2004

सं. 7(97) 2837--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर प्रतिभूति कागज कारखाना में तकनीक अधिकारी (यांत्रिक) श्री बी. एम. चौरे, को दिनांक 30.06.2004 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से निवृत्त किया जाता है इसी तारीख से उनका नाम प्रतिभूति कागज कारखाना की पंजिका से हटा दिया जायेगा।

अश्विनी कुमार  
महाप्रबंधक

सं. 7(138) 2838--विभागीय पदोन्नति समिति वर्ग "ख" की सिफारिशों के आधार पर अधोहस्ताक्षरकर्ता श्री पी. व. भगवान, तकनीकी अधिकारी

(उत्पादन) की परीक्षा अवधि दिनांक 19.04.2003 से सहर्ष समाप्त करते हैं।

अश्विनी कुमार  
महाप्रबंधक

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग  
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली-110002, दिनांक 28 जून 2004

सं. 3154/जी.ई. I/176-98/भाग-II--भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा के निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से सेवा-निवृत्त हो चुके हैं :-

सर्वश्री

1. बी. बी. मनोचा स्वैच्छिक सेवा निवृत्त दिनांक 01.09.2003 (पूर्वाह्न)

2. एम. एस. रामकृष्ण स्वैच्छिक सेवा निवृत्त 29.04.2004 (पूर्वाह्न)

3. पी. बी. रामचन्द्रन अधिवार्षिकी दिनांक 30.04.2004 (अपराह्न)

4. एन. जॉयकुट्टी --यथोक्त--

5. टी. के. घोष --यथोक्त--

दीपक नारायण  
सहायक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कार्मिक)

सं. 3155/जी.ई. I/176-98/भाग-II--श्री हेम राज शर्मा, वरिष्ठ प्रधान वैयक्तिक सचिव दिनांक 27.04.2004 (पूर्वाह्न) को स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

दीपक नारायण  
सहायक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कार्मिक)

कृषि मंत्रालय  
(कृषि एवं सहकारिता विभाग)  
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय

फरीदाबाद, दिनांक 24 जून 2004

सं. ए. 19025/42/79-प्रशा. I--अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने पर श्री आर. पी. जायसवाल, विपणन अधिकारी (ग्रुप-1) विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, वाराणसी दिनांक 30.04.2004 के (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

ए. के. चोपड़ा  
अवर सचिव

परमाणु ऊर्जा विभाग  
(क्रय और भंडार निदेशालय)

मुंबई-400 094, दिनांक 16 जून 2004

संदर्भ क्रभनि/10002/भर्ती/2416--परमाणु ऊर्जा विभाग, क्रय और भंडार निदेशालय के निदेशक ने केन्द्रीय लेखा एकक, क्रभनि, मुंबई की सहायक लेखाकार श्रीमती के. एस. विजयलक्ष्मी को इसी निदेशालय में दि. 19.04.2004 (पूर्वाह्न) से 27.05.2004 (अपराह्न) तक रु. 7450-225-11500 के वेतनमान में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है।

ह./ अपठनीय  
प्रशासनिक अधिकारी-III

(नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र)

हैदराबाद-500 062, दिनांक 18 जून 2004

सं. नाईस/प्रशा./पेशन/का.कू. 2929/359--नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के श्री वी. चोपड़ा, वैज्ञानिक अधिकारी 'जी', (वेतनमान रु. 16,400-450-20,000) ने स्वीच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने पर दिनांक 01.06.2004 (पूर्वाह्न) से पद का कार्यभार त्याग दिया है।

जी. कोटेश्वर राव  
प्रशासनिक अधिकारी

(भारी पानी बोर्ड)

मुंबई-400 094, दिनांक 22 जून 2004

संदर्भ: भापाबो/भर्ती/5(2)-केन्द्रीय कार्यालय/2004/460--मुख्य कार्यकारी, भारी पानी बोर्ड, श्री जी. आर. राजूल, चरिष्ठ लिपिक, भारी पानी बोर्ड (केन्द्रीय कार्यालय), मुंबई को उसी कार्यालय में रु. 6500-200-10500 के वेतनमान में दिनांक 1 दिसम्बर, 2004 (पूर्वाह्न) से प्रभावी रूप में 28 मई, 2004 (अपराह्न) तक सहायक कार्मिक अधिकारी के रूप में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं।

बी. एस. राव  
प्रशासन अधिकारी

अन्तरिक्ष विभाग  
(भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन)

बेंगलूर-560 094, दिनांक 17 मार्च 2004

सं. मु. प्रशासन: 12.25--वैज्ञानिक सचिव, इसरो, इसरो मुख्यालय, बेंगलूर में श्री के. गोपालकृष्णन, निजी सहायक-सी (रु. 6500-200-10500) को दिनांक 10.03.2004 से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

हंसा रामन  
प्रशासन अधिकारी

आयकर अपीलीय अधिकरण

मुंबई-400020, दिनांक 1 जून 2004

शुद्धि पत्र

सं. एफ. 71-एडी(एटी)/2002--आयकर अपीलीय अधिकरण (संशोधन) नियमावली, 2002 के दिनांक 08.04.2002 की अधिसूचना क्रमांक सं. एफ. 71-एडी(एटी)/2002 में नियम 25 के उपबंध की दूसरी पंक्ति में दृष्ट्य "अपीलार्थी" शब्द को "प्रत्यर्थी" पढ़ा जाये।

आदेशानुसार  
आयकर अपीलीय अधिकरण  
जे. एस. छिल्लर  
पंजीकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय  
(श्रम ब्यूरो)

शिमला-171 004, दिनांक 30 जून 2004

सं. 5/1/2004-सी.पी.आई.--मई, 2004 में औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1982-100) 4 अंक बढ़ कर 508 (पांच सौ आठ) अंक रहा।

आई. एस. नेगी  
उप निदेशक

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय  
(कम्पनी कार्य विभाग)  
कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मैमोअर्स कम्प्यूनिकेशंस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 8 जनवरी 2004

सं. 560(3)/55/98985/597--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मैमोअर्स कम्प्यूनिकेशंस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एन. के. बागड़ी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स स्यूअरड्रेप सिविक इंडिया लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 7 अप्रैल 2004

सं. 560(3)/55/101246/387--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है

कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स स्यूअरड्रेप सिविक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. कै. बागड़ी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ब्राइट इंटरनेशनल कैसेटर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुम्बई-400002, दिनांक 23 अक्टूबर 2003

सं. 370/19372/560-3851--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ब्राइट इंटरनेशनल कैसेटर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अन्तर्गत और फास्ट ट्रेक स्कीम के अंतर्गत आवेदन के विषय में।

मुम्बई-400002, दिनांक 23 अक्टूबर 2003

सं. 2487/29978/560--एतद्वारा नोटिस दी जाती है, कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उप-धारा (3) तथा भारत सरकार के कंपनी कार्य विभाग के दिनांक 20.9.2000 के पत्र संख्या 1/5/2000 सीएल. वी के परिपत्र सं. 10/2000 द्वारा पठित के अनुसरण में किसी व्यक्ति, प्राधिकारी आदि द्वारा उपरोक्त के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वे एक सप्ताह की भीतर अधोहस्ताक्षरी को उनकी आपत्तियां लिखित रूप में सूचित करें।

यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो मैसर्स ग्रीक्स मिडवेस्ट इंजिनियरिंग कंपनी लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सर्ववेल इण्डस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुम्बई-400002, दिनांक 23 अक्टूबर 2003

सं. 371/12360/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सर्ववेल इण्डस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एच.डी.एफ.सी. वेबनेट सर्विसेज़ प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुम्बई-400002, दिनांक 23 अक्टूबर 2003

सं. 369/126964/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एच.डी.एफ.सी. वेबनेट सर्विसेज़ प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सिद्धि विनायक पोर्ट्स एण्ड पावर लिमिटेड के विषय में।

मुम्बई-400002, दिनांक 3 नवम्बर 2003

सं. 223/126101/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सिद्धि विनायक पोर्ट्स एण्ड पावर लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित की गई है।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रोलेक्स बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुम्बई-400002, दिनांक 3 नवम्बर 2003

सं. 225/57195/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हुसामी डेवेलोपर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुम्बई-400002, दिनांक 3 नवम्बर 2003

सं. 130268/215/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स हुसामी डेवेलोपर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित की गई है।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स लेहरे एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुम्बई-400002, दिनांक 3 नवम्बर 2003

सं. 212/116228/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स लेहरे एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित की गई है।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स माथुरदास विशनजी इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुम्बई-400002, दिनांक 3 नवम्बर 2003

सं. 2474/18153/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स माथुरदास विशनजी इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित की गई है।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बलसारा फायनान्सियल सर्विसेज़ प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुम्बई-400002, दिनांक 3 नवम्बर 2003

सं. 221/74504/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

मैसर्स बलसारा फायनान्सियल सर्विसेज़ प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित की गई है।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वर्जिनिटी ट्रेडर्स लिमिटेड के विषय में।

मुम्बई-400002, दिनांक 3 नवम्बर 2003

सं. 214/68803/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स वर्जिनिटी ट्रेडर्स लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित की गई है।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हब फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुम्बई-400002, दिनांक 3 नवम्बर 2003

सं. 220/30708/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स हब फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित की गई है।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शौर्या फार्म्स एण्ड प्रोपर्टीज़ प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुम्बई-400002, दिनांक 3 नवम्बर 2003

सं. 216/116229/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स शौर्या फार्म्स एण्ड प्रोपर्टीज़ प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित की गई है।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स लेहेरोन एडवर्टाइजिंग एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुम्बई-400002, दिनांक 3 नवम्बर 2003

सं. 218/116235/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स लेहेरोन एडवर्टाइजिंग एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित की गई है।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अन्तर्गत फास्ट ट्रैक स्कीम के अन्तर्गत आवेदन एवं निम्नलिखित कम्पनियों के मामले में।

मुम्बई-400002, दिनांक 31 मई 2004

सं. आर.ओ.सी./560(3)/2000--एतद्वारा नोटिस दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उप-धारा (3) के अनुसरण में भारत सरकार के कम्पनी कार्य विभाग के दिनांक 20.9.2000 के पत्र सं. 1/5/2000 सी.एल. व्ही. के परिपत्र सं. 10/2000 द्वारा पठित के अनुसरण में किसी व्यक्ति, प्राधिकारी आदि को उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वे एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को उनकी आपत्तियां लिखित रूप में सूचित करें।

निम्नलिखित कम्पनियां जब तक उनके विपरीत कोई कारण नहीं दर्शाती हैं तो उनका रजिस्टर से नाम काट दिया जाएगा तथा उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :-

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	22972	मैसर्स रेखरेश मैनेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	22818	मैसर्स रामा होटेल्स प्राइवेट लिमिटेड
3.	22082	मैसर्स डायना टेक्सकेम प्राइवेट लिमिटेड
4.	21293	मैसर्स जे. जी. शाह क्रिम्पलॉन प्राइवेट लिमिटेड
5.	21008	मैसर्स देवयानी इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
6.	20799	मैसर्स वेस्टर्न इण्डिया फिशरीज प्राइवेट लिमिटेड
7.	20547	मैसर्स पेनाफ्रिक एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
8.	1210	मैसर्स चाकाहटी एण्ड ठाकरसी प्राइवेट लिमिटेड
9.	5276	मैसर्स एंग्लो अमेरिकन डाई स्टफ कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
10.	11353	मैसर्स सौराष्ट्र इलेक्ट्रिकल एण्ड मेटल इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
11.	13376	मैसर्स किल्लिक इन्डस्ट्रियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
12.	15777	मैसर्स हीरो होलिडिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
13.	17837	मैसर्स आल इण्डिया मैन मेड टेक्सटाइल मैनुफैक्चरिंग एसोसिएशन प्राइवेट लिमिटेड
14.	19277	मैसर्स आशा एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
15.	19505	मैसर्स गोगटे मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 के अन्तर्गत फास्ट ट्रैक स्कीम के अन्तर्गत आवेदन एवं निम्नलिखित कम्पनियों के मामले में।

मुम्बई-400002, दिनांक 31 मई 2004

सं. आर.ओ.सी./560(3)/2000--एतद्वारा नोटिस दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उप-धारा (3) के अनुसरण में भारत सरकार के कम्पनी कार्य विभाग के दिनांक 20.9.2000 के पत्र सं. 1/5/2000 सी.एल. व्ही. के परिपत्र सं. 10/2000 द्वारा पठित के अनुसरण में किसी व्यक्ति, प्राधिकारी आदि को उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वे एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को उनकी आपत्तियां लिखित रूप में सूचित करें।

निम्नलिखित कम्पनियां जब तक उनके विपरीत कोई कारण नहीं दर्शाती हैं तो उनका रजिस्टर से नाम काट दिया जाएगा तथा उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :-

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	29551	मैसर्स इंदिरा लालवानी मेडिकल रिसर्च सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड
2.	29311	मैसर्स दादलानी रीलेट्स प्राइवेट लिमिटेड
3.	28944	मैसर्स विश्व भारत इक्युपमेन्ट लीजिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
4.	28694	मैसर्स श्रीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
5.	28226	मैसर्स यर हार्जिंग प्रिमिसेस प्राइवेट लिमिटेड
6.	28206	मैसर्स आनन्द इनओरगनोकेम प्राइवेट लिमिटेड
7.	25993	मैसर्स टीनन ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
8.	25607	मैसर्स नीजा होल्डिंग प्राईवेट लिमिटेड
9.	25597	मैसर्स काजन होल्डिंग प्राईवेट लिमिटेड
10.	25533	मैसर्स संदर्भ इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	24659	मैसर्स शाह मेनेजमेंट एण्ड टेक्सेशन कन्सलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	24388	मैसर्स नोशीर कन्सलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	17837	मैसर्स एकमे होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	24164	मैसर्स ट्रियोन ओफशोर प्राईवेट लिमिटेड
15.	23660	मैसर्स पर्ला होटल्स प्राईवेट लिमिटेड

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

1	2	3
9.	26702	मैसर्स डेलस्टार शिपिंग एण्ड ट्रांसपोर्ट्स लिमिटेड
10.	26252	मैसर्स पुरोहित ऑटो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	28182	मैसर्स श्री "एम" फायनान्सियल इन्वेस्टमेंट एण्ड कन्सलटेंट्स लिमिटेड
12.	29713	मैसर्स टीपी प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	29712	मैसर्स यीरामिक प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	29711	मैसर्स शरद प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	25994	मैसर्स नानगात ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 के अन्तर्गत फास्ट ट्रैक स्कीम के अन्तर्गत आवेदन एवं निम्नलिखित कम्पनियों के मामले हैं।

मुम्बई-400002, दिनांक 31 मई 2004

सं. आर.ओ.सी./560(3)/2000--एतद्वारा नोटिस दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उप-धारा (3) के अनुसारण में भारत सरकार के कम्पनी कार्य विभाग के दिनांक 20.9.2000 के पत्र सं. 1/5/2000 सी.एल. व्ही. के परिपत्र सं. 10/2000 द्वारा पठित के अनुसारण में किसी व्यक्ति, प्राधिकारी आदि को उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वे एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को उनकी आपत्तियां लिखित रूप में सूचित करें।

निम्नलिखित कम्पनियां जब तक उनके विपरीत कोई कारण नहीं दर्शाती हैं तो उनका रजिस्टर से नाम काट दिया जाएगा तथा उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	18740	मैसर्स इएसडी इंडेन्टिंग हाऊस प्राईवेट लिमिटेड
2.	107332	मैसर्स जयसन्स फ्यूल पाईप प्राईवेट लिमिटेड
3.	67151	मैसर्स ब्रह्माचैतन्य आफसेट प्राईवेट लिमिटेड
4.	20498	मैसर्स कांतीलाल केशवलाल एप्लाइड प्राईवेट लिमिटेड
5.	27879	मैसर्स खेतान क्लोथ मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	27458	मैसर्स रोखव ट्रेडिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
7.	27286	मैसर्स रंडल एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	27103	मैसर्स कनसोलीडेटेड ट्रांसपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 के अन्तर्गत फास्ट ट्रैक स्कीम के अन्तर्गत आवेदन एवं निम्नलिखित कम्पनियों के मामले हैं।

मुम्बई-400002, दिनांक 31 मई 2004

सं. आर.ओ.सी./560(3)/2000--एतद्वारा नोटिस दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उप-धारा (3) के अनुसारण में भारत सरकार के कम्पनी कार्य विभाग के दिनांक 20.9.2000 के पत्र सं. 1/5/2000 सी.एल. व्ही. के परिपत्र सं. 10/2000 द्वारा पठित के अनुसारण में किसी व्यक्ति, प्राधिकारी आदि को उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वे एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को उनकी आपत्तियां लिखित रूप में सूचित करें।

निम्नलिखित कम्पनियां जब तक उनके विपरीत कोई कारण नहीं दर्शाती हैं तो उनका रजिस्टर से नाम काट दिया जाएगा तथा उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	45428	मैसर्स रिक्की केम प्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड
2.	45016	मैसर्स दुग्गा इंजीनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	43534	मैसर्स जेधवानी इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
4.	43330	मैसर्स रोमान्स सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	43278	मैसर्स श्री सती जती कन्सल्टेशन एण्ड डेवलपमेंट लिमिटेड
6.	43175	मैसर्स हरेश इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	42450	मैसर्स प्रीमियर ब्लो पैक इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
8.	42285	मैसर्स केपी लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड



1	2	3
9.	42270	मैसर्स इफीसिएन्ट इलेक्ट्रोमेक प्राईवेट लिमिटेड
10.	42220	मैसर्स मेटलारम एण्ड सन्स टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	42098	मैसर्स लोटस सिस्टम डेवलपमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
12.	41750	मैसर्स नीमेश सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	41230	मैसर्स यूनीलैब डाइग्नोस्टिक सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड
14.	41786	मैसर्स केनविल कन्सलटेन्सी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
15.	41098	मैसर्स सुभाष एयरकन्डीशनिंग प्राईवेट लिमिटेड

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

1	2	3
7.	48995	मैसर्स इण्डियन लेटेक्स इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
8.	48955	मैसर्स परफेक्ट कम्बुशन प्राईवेट लिमिटेड
9.	48576	मैसर्स मेडी कन्टेनर्स (बोम्बे) प्राईवेट लिमिटेड
10.	47847	मैसर्स आईवीआई कन्ट्रोल्ल्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	47275	मैसर्स हेमजीलोन सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	47054	मैसर्स याजदा इलेक्ट्रॉनिक्स कन्सलटेन्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	46336	मैसर्स ला-हा जर्जर मैनुफैक्चरिंग प्राईवेट लिमिटेड
14.	45652	मैसर्स प्रिन्स कॉमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 के अन्तर्गत फास्ट ट्रैक स्कीम के अन्तर्गत आवेदन एवं निम्नलिखित कम्पनियों के मामले में।

मुम्बई-400002, दिनांक 31 मई 2004

सं. आर.ओ.सी./560(3)/2000--एतद्वारा नोटिस दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उप-धारा (3) के अनुसरण में भारत सरकार के कम्पनी कार्य विभाग के दिनांक 20.9.2000 के पत्र सं. 1/5/2000 सी.एल. व्ही. के परिपत्र सं. 10/2000 द्वारा पठित के अनुसरण में किसी व्यक्ति, प्राधिकारी आदि को उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वे एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को उनकी आपत्तियां लिखित रूप में सूचित करें।

निम्नलिखित कम्पनियां जब तक उनके विपरीत कोई कारण नहीं दर्शाती हैं तो उनका रजिस्टर से नाम काट दिया जाएगा तथा उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	40023	मैसर्स ट्वेन्टीफस्ट सेन्चुरी फैंब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	49768	मैसर्स जाक्स होटेल्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	49735	मैसर्स सुश्रुत डाइग्नोस्टिक सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड
4.	49425	मैसर्स इन्द्रानी इन्डस्ट्रियल प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	49232	मैसर्स दमन इन्डस्ट्रियल इस्टेट लिमिटेड
6.	49078	मैसर्स स्पेयर्स राइट इन्जीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 के अन्तर्गत फास्ट ट्रैक स्कीम के अन्तर्गत आवेदन एवं निम्नलिखित कम्पनियों के मामले में।

मुम्बई-400002, दिनांक 7 जून 2004

सं. आर.ओ.सी./560(3)/2000--एतद्वारा नोटिस दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उप-धारा (3) के अनुसरण में भारत सरकार के कम्पनी कार्य विभाग के दिनांक 20.9.2000 के पत्र सं. 1/5/2000 सी.एल. व्ही. के परिपत्र सं. 10/2000 द्वारा पठित के अनुसरण में किसी व्यक्ति, प्राधिकारी आदि को उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वे एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को उनकी आपत्तियां लिखित रूप में सूचित करें।

निम्नलिखित कम्पनियां जब तक उनके विपरीत कोई कारण नहीं दर्शाती हैं तो उनका रजिस्टर से नाम काट दिया जाएगा तथा उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	56757	मैसर्स असदीक्का-अल-असदीक्का एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	77759	मैसर्स काशी एग्रो इन्डस्ट्रीज लिमिटेड
3.	31973	मैसर्स यूनिवर्सल इन्टरमीडिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	58563	मैसर्स पारसमणी कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड
5.	59988	मैसर्स प्रोफेशनल फूड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
6.	58353	मैसर्स बन्धिया बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
7.	56866	मैसर्स कुसुमगार अपरेल टेक्सटाईल प्राईवेट लिमिटेड
8.	55858	मैसर्स अनुराधा एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	55342	मैसर्स कलपक इन्डस्ट्रीज लिमिटेड
10.	55109	मैसर्स यश एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
11.	54740	मैसर्स वीन्यल ओरगनीक्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	54659	मैसर्स रीजेन्सी इन् (अहमदाबाद) प्राईवेट लिमिटेड
13.	54506	मैसर्स नेमोक्स केमिकल इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
14.	53124	मैसर्स छुलक स्टील इन्डस्ट्रीज लिमिटेड
15.	52759	मैसर्स टासीट फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 के अन्तर्गत फास्ट ट्रैक  
स्कीम के अन्तर्गत आवेदन एवं निम्नलिखित कम्पनियों के मामले में।

मुम्बई-400002, दिनांक 7 जून 2004

सं. आर.ओ.सी./560(3)/2000--एतद्वारा नोटिस दी जाती है कि  
कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उप-धारा (3) के अनुसरण  
में भारत सरकार के कम्पनी कार्य विभाग के दिनांक 20.9.2000 के पत्र  
सं. 1/5/2000 सी.एल. व्ही. के परिपत्र सं. 10/2000 द्वारा पठित के  
अनुसरण में किसी व्यक्ति, प्राधिकारी आदि को उपरोक्त के सम्बन्ध में  
कोई आपत्ति हो तो वे एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को उनकी  
आपत्तियां लिखित रूप में सूचित करें।

निम्नलिखित कम्पनियां जब तक उनके विपरीत कोई कारण नहीं  
दर्शाती हैं तो उनका रजिस्ट्रार से नाम काट दिया जाएगा तथा उक्त  
कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :-

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	107538	मैसर्स राजमुद्रा कोनकास्ट प्राईवेट लिमिटेड
2.	107862	मैसर्स आर्वी कम्प्यूटेक लिमिटेड
3.	109263	मैसर्स विजयातम ड्वेलर्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	109848	मैसर्स कैलाश मोनेटरी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
5.	110021	मैसर्स जयकिरण साल्ट सप्लाय प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
6.	110047	मैसर्स क्रायोटोगम प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	110857	मैसर्स शेलम थर्मोपैक प्राईवेट लिमिटेड
8.	111506	मैसर्स आर. एस. फोइल्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	111582	मैसर्स इन्स्ट्रुमेन्ट्स एण्ड मशीन्स (बोम्बे) प्राईवेट लिमिटेड
10.	112784	मैसर्स यूनाइटेड अर्थ मूवर्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	112842	मैसर्स सल्यूट मार्केटिंग लिक्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	114749	मैसर्स फेडरेशन ऑफ मैन मेड टेक्सटाईल्स ट्रेडर्स असोसिएशन्स
13.	98082	मैसर्स सामलोत (इण्डिया) ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	27486	मैसर्स अताश इन्जीनियरिंग इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 के अन्तर्गत फास्ट ट्रैक  
स्कीम के अन्तर्गत आवेदन एवं निम्नलिखित कम्पनियों के मामले में।

मुम्बई-400002, दिनांक 7 जून 2004

सं. आर.ओ.सी./560(3)/2000--एतद्वारा नोटिस दी जाती है कि  
कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उप-धारा (3) के अनुसरण  
में भारत सरकार के कम्पनी कार्य विभाग के दिनांक 20.9.2000 के पत्र  
सं. 1/5/2000 सी.एल. व्ही. के परिपत्र सं. 10/2000 द्वारा पठित के  
अनुसरण में किसी व्यक्ति, प्राधिकारी आदि को उपरोक्त के सम्बन्ध में  
कोई आपत्ति हो तो वे एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को उनकी  
आपत्तियां लिखित रूप में सूचित करें।

निम्नलिखित कम्पनियां जब तक उनके विपरीत कोई कारण नहीं  
दर्शाती हैं तो उनका रजिस्ट्रार से नाम काट दिया जाएगा तथा उक्त  
कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :-

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	56248	मैसर्स मजदा होल्डींग्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	18839	मैसर्स अग्रवाल पब्लिशर्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	41882	मैसर्स सुभकर टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	56455	मैसर्स चेरी सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	94512	मैसर्स असतोनीश कोसमेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
6.	68348	मैसर्स स्मीत इंजीनियरिंग मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
7.	56562	मैसर्स ब्रीज मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	75400	मैसर्स जी.एम. एग्रो-फूड प्रोडक्ट्स लि.
9.	96978	मैसर्स अलमेंडा कैपिटल लि.
10.	56405	मैसर्स अटीक्सट कम्प्यूटर्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
11.	112730	मैसर्स माता धनलक्ष्मी फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड
12.	69067	मैसर्स दाकले फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड
13.	56232	मैसर्स गणेश रेडियो एण्ड टी.व्ही. एजेन्सीस प्राईवेट लिमिटेड
14.	122329	मैसर्स वातसल्या एग्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	52069	मैसर्स राजधन कर्टिंग टाईज प्राईवेट लिमिटेड

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 के अन्तर्गत फास्ट ट्रेक स्कीम के अन्तर्गत आवेदन एवं निम्नलिखित कम्पनियों के मामले में।

मुम्बई-400002, दिनांक 7 जून 2004

सं. आर.ओ.सी./560(3)/2000--एतद्वारा नोटिस दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उप-धारा (3) के अनुसरण में भारत सरकार के कम्पनी कार्य विभाग के दिनांक 20.9.2000 के पत्र सं. 1/5/2000 सी.एल. व्ही. के परिपत्र सं. 10/2000 द्वारा पठित के अनुसरण में किसी व्यक्ति, प्राधिकारी आदि को उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वे एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को उनकी आपत्तियां लिखित रूप में सूचित करें।

निम्नलिखित कम्पनियां जब तक उनके विपरीत कोई कारण नहीं दर्शाती हैं तो उनका रजिस्ट्रार से नाम काट दिया जाएगा तथा उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	100676	मैसर्स साऊथ केनरा कैपिटल एण्ड फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड
2.	101425	मैसर्स अदी-फीन स्टोक प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
3.	101521	मैसर्स मीक्रो गेट नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड
4.	102106	मैसर्स गोल्ड मोहर कैपिटल एण्ड लिसींग लिमिटेड
5.	102470	मैसर्स साईप्रकाश लिसिंग एण्ड फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड
6.	102946	मैसर्स श्रीनोस फाईनेंस एण्ड लिसिंग प्राईवेट लिमिटेड
7.	103547	मैसर्स सुरगाना हैटेक फर्म प्राईवेट लिमिटेड
8.	103604	मैसर्स हेमन्त कंटरर्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	103699	मैसर्स वेदान्त हर्बल एण्ड प्लांट फोरमुलेशन प्राईवेट लिमिटेड
10.	103879	मैसर्स फौटेनहेड कन्सल्टंट्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	105364	मैसर्स टी.टी. आई जीपीसी एनर्जी लिमिटेड
12.	105532	मैसर्स सुविधा फाईनिशियल सर्विसेज़ प्राईवेट लिमिटेड
13.	106523	मैसर्स चवान्स इन्नो एग्रो फोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	106778	मैसर्स भारद्वाज एण्ड भारद्वाज मैनेजमेंट कन्सल्टंट्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	107162	मैसर्स फास्ट इंजीनियर्स एण्ड ट्रेड प्राईवेट लिमिटेड

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 के अन्तर्गत फास्ट ट्रेक स्कीम के अन्तर्गत आवेदन एवं निम्नलिखित कम्पनियों के मामले में।

मुम्बई-400002, दिनांक 11 जून 2004

सं. आर.ओ.सी./560(3)/2000--एतद्वारा नोटिस दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उप-धारा (3) के अनुसरण में भारत सरकार के कम्पनी कार्य विभाग के दिनांक 20.9.2000 के पत्र सं. 1/5/2000 सी.एल. व्ही. के परिपत्र सं. 10/2000 द्वारा पठित के अनुसरण में किसी व्यक्ति, प्राधिकारी आदि को उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वे एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को उनकी आपत्तियां लिखित रूप में सूचित करें।

निम्नलिखित कम्पनियां जब तक उनके विपरीत कोई कारण नहीं दर्शाती हैं तो उनका रजिस्टर से नाम काट दिया जाएगा तथा उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	71295	मैसर्स इंटरकोन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
2.	47578	मैसर्स डीम रीवर विलेहेज रीसोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
3.	34490	मैसर्स श्रीकृपा ट्रेड एण्ड एजेन्सी लिमिटेड
4.	76346	मैसर्स क्षीतीज फाईनेंशियल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
5.	28601	मैसर्स पंगनुर कन्सलटेन्सी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
6.	41943	मैसर्स श्री भगवान लीज एण्ड फाईनेंस लिमिटेड
7.	37166	मैसर्स कौशल फास्टनर्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	13024	मैसर्स राम राज्य सोशल क्लब लिमिटेड
9.	25987	मैसर्स मीनाप्रोसी ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
10.	25213	मैसर्स एस.वी. खथरानी फाईनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
11.	31181	मैसर्स स्क्रीन इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
12.	33166	मैसर्स यूनीवर्सल क्लोथ मैनुफैक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	419574	मैसर्स स्ट्रंड होटेल प्राईवेट लिमिटेड
14.	104676	मैसर्स एवी फीन सेक्युरिटीज लिमिटेड
15.	100531	मैसर्स चेतन काश डेकोर प्राईवेट लिमिटेड

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 के अन्तर्गत फास्ट ट्रैक स्कीम के अन्तर्गत आवेदन एवं निम्नलिखित कम्पनियों के मामले में।

मुम्बई-400002, दिनांक 11 जून 2004

सं. आर.ओ.सी./560(3)/2000--एतद्वारा नोटिस दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उप-धारा (3) के अनुसरण में भारत सरकार के कम्पनी कार्य विभाग के दिनांक 20.9.2000 के पत्र सं. 1/5/2000 सी.एल. व्ही. के परिपत्र सं. 10/2000 द्वारा पठित के अनुसरण में किसी व्यक्ति, प्राधिकारी आदि को उपरोक्त के सम्बन्ध में

कोई आपत्ति हो तो वे एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को उनकी आपत्तियां लिखित रूप में सूचित करें।

निम्नलिखित कम्पनियां जब तक उनके विपरीत कोई कारण नहीं दर्शाती हैं तो उनका रजिस्टर से नाम काट दिया जाएगा तथा उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	45052	मैसर्स महावीर एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	22942	मैसर्स अश्वीन इलेक्ट्रोमेट (इंडिया) लिमिटेड
3.	45864	मैसर्स रामलॉ पब्लिशर्स एण्ड कन्सलटेन्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	105601	मैसर्स टपफ प्रोडक्ट्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
5.	42902	मैसर्स शहा फुटवेअर प्राईवेट लिमिटेड
6.	25738	मैसर्स के.आर. साइन्टीफीक रीसर्च एण्ड डेवलपमेंट फाउंडेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	72112	मैसर्स झरक फेलीमर्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	44918	मैसर्स अकशर डोर्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	15192	मैसर्स महाराष्ट्र वीन्नीरिज प्राईवेट लिमिटेड
10.	31498	मैसर्स प्लेनस्म फाईनेंशियल एण्ड इन्वेस्टमेंट (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
11.	18705	मैसर्स शशी प्रोपर्टीज एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
12.	40610	मैसर्स प्राइमटाइम टी.व्ही. प्रोडक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	38085	मैसर्स एमएएस टेक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	40555	मैसर्स गालेक्सी इनफोरमेशन सिस्टम एण्ड टेक्नोलोजी लिमिटेड
15.	16018	मैसर्स प्लेनेट ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 के अन्तर्गत फास्ट ट्रैक स्कीम के अन्तर्गत आवेदन एवं निम्नलिखित कम्पनियों के मामले में।

मुम्बई-400002, दिनांक 11 जून 2004

सं. आर.ओ.सी./560(3)/2000--एतद्वारा नोटिस दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उप-धारा (3) के अनुसरण में भारत सरकार के कम्पनी कार्य विभाग के दिनांक 20.9.2000 के पत्र

सं. 1/5/2000 सी.एल. व्ही. के परिपत्र सं. 10/2000 द्वारा पठित के अनुसरण में किसी व्यक्ति, प्राधिकारी आदि को उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वे एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को उनकी आपत्तियां लिखित रूप में सूचित करें।

निम्नलिखित कम्पनियां जब तक उनके विपरीत कोई कारण नहीं दर्शाती हैं तो उनका रजिस्टर से नाम काट दिया जाएगा तथा उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	93065	मैसर्स प्रभावशाली बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	88500	मैसर्स एवन वक्यूम कोटर प्राईवेट लिमिटेड
3.	44496	मैसर्स उत्तम डायमंड टूल्स एण्ड सीन्टर्ड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	37553	मैसर्स श्री भैरव बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	36443	मैसर्स अलमेडा बिल्डर्स एण्ड लेण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	100750	मैसर्स पाटील एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	7641	मैसर्स नीला प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	3325	मैसर्स जे.बी. मानेकजी एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
9.	78897	मैसर्स छेदा बेएरींग्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	23171	मैसर्स प्रकाश एग्रो इंडस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड
11.	25163	मैसर्स एम. सी. कथरानी इन्वेस्टमेंट एण्ड फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड
12.	96229	मैसर्स रेपेक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
13.	12997	मैसर्स के.एस.पी. मेकनीकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स इंडस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड
14.	65943	मैसर्स सोटेक्स एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	25162	मैसर्स जे.सी. कथरानी इन्वेस्टमेंट एण्ड फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड
16.	27551	मैसर्स सी.ओ.एस. एजेंसीज़

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

में भारत सरकार के कम्पनी कार्य विभाग के दिनांक 20.9.2000 के पत्र सं. 1/5/2000 सी.एल. व्ही. के परिपत्र सं. 10/2000 द्वारा पठित के अनुसरण में किसी व्यक्ति, प्राधिकारी आदि को उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वे एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को उनकी आपत्तियां लिखित रूप में सूचित करें।

निम्नलिखित कम्पनियां जब तक उनके विपरीत कोई कारण नहीं दर्शाती हैं तो उनका रजिस्टर से नाम काट दिया जाएगा तथा उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	45044	मैसर्स खंबती डायमंड टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	41432	मैसर्स लीजेन्ड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड
3.	63530	मैसर्स ग्रांट केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	72624	मैसर्स नाग प्रोटीन्स (इंडिया) लिमिटेड
5.	42843	मैसर्स कुवेलकर फ्लेक्सपॉक प्राईवेट लिमिटेड
6.	34761	मैसर्स अनमोल बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	93903	मैसर्स वैष्णव कैपिटल्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	50189	मैसर्स परशुराम ओरगेनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	88557	मैसर्स टाइगर कैपिटल एण्ड फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	33454	मैसर्स अंकित एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	22254	मैसर्स सोनल सोप्स एण्ड कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	99897	मैसर्स राज यश लिजिंग एण्ड फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	92020	मैसर्स श्री साई गणेश अर्थमूवर्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	97515	मैसर्स एल एस सिमको (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
15.	19507	मैसर्स दि बेलगॉम कॉमर्शियल एजेंसीज़ एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 के अन्तर्गत फास्ट ट्रेक स्कीम के अन्तर्गत आवेदन एवं निम्नलिखित कम्पनियों के मामले में।

मुम्बई-400002, दिनांक 11 जून 2004

सं. आर.ओ.सी./560(3)/2000--एतद्वारा नोटिस दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उप-धारा (3) के अनुसार

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 के अन्तर्गत फास्ट ट्रेक स्कीम के अन्तर्गत आवेदन एवं निम्नलिखित कम्पनियों के मामले में।

मुम्बई-400002, दिनांक 11 जून 2004

सं. आर.ओ.सी./560(3)/2000--एतद्वारा नोटिस दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उप-धारा (3) के अनुसार में भारत सरकार के कम्पनी कार्य विभाग के दिनांक 20.9.2000 के पत्र

सं. 1/5/2000 सी.एल. व्ही. के परिपत्र सं. 10/2000 द्वारा पठित के अनुसरण में किसी व्यक्ति, प्राधिकारी आदि को उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वे एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को उनकी आपत्तियां लिखित रूप में सूचित करें।

निम्नलिखित कम्पनियां जब तक उनके विपरीत कोई कारण नहीं दर्शाती हैं तो उनका रजिस्टर से नाम काट दिया जाएगा तथा उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	51402	मैसर्स जुगल फैब्रिकेटर्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	52368	मैसर्स रमेश कुलकर्णी कम्प्यूनीकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	50849	मैसर्स राइकुन्दलीया फूड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	50828	मैसर्स रीक्रक इलेक्ट्रॉनिक्स (बोम्बे) प्राईवेट लिमिटेड
5.	51412	मैसर्स जे. जसवन्तलाल एण्ड ब्रदर्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	53597	मैसर्स श्री बालाजी कापीयर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
7.	42950	मैसर्स रिखब सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	38550	मैसर्स भुगदीप फेब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	76183	मैसर्स जी. एम. ट्रान्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
10.	34464	मैसर्स जे. आर. शाह मेडिकल फाउन्डेशन
11.	100470	मैसर्स प्रनिध लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड
12.	72949	मैसर्स प्रतिभा सेफ्टी इन्स्ट्रुमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	44643	मैसर्स गायत्री वीनयल प्राईवेट लिमिटेड
14.	81794	मैसर्स नीलसुना इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
15.	63615	मैसर्स रुजीकोन सर्जिकल्स प्राईवेट लिमिटेड

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 के अन्तर्गत फास्ट ट्रैक स्कीम के अन्तर्गत आवेदन एवं निम्नलिखित कम्पनियों के मामले में।

मुम्बई-400002, दिनांक 17 जून 2004

सं. आर.ओ.सी./560(3)/2000--एतद्वारा नोटिस दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उप-धारा (3) के अनुसरण

में भारत सरकार के कम्पनी कार्य विभाग के दिनांक 20.9.2000 के पत्र सं. 1/5/2000 सी.एल. व्ही. के परिपत्र सं. 10/2000 द्वारा पठित के अनुसरण में किसी व्यक्ति, प्राधिकारी आदि को उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वे एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को उनकी आपत्तियां लिखित रूप में सूचित करें।

निम्नलिखित कम्पनियां जब तक उनके विपरीत कोई कारण नहीं दर्शाती हैं तो उनका रजिस्टर से नाम काट दिया जाएगा तथा उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	55413	मैसर्स कलावर एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	48550	मैसर्स रामट्रोनिक्स इन्जीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
3.	51762	मैसर्स चिराग ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	116887	मैसर्स इगवेन्जेज फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	59865	मैसर्स वेल्डन एल्युमिनियम लिमिटेड
6.	59305	मैसर्स होटेल भाग्यश्री प्राईवेट लिमिटेड
7.	65682	मैसर्स स्टैन्डर्ड फैशन एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
8.	43404	मैसर्स सुमित कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	112914	मैसर्स खानदेश एसीटिलीन एण्ड ऑक्सीजन प्राईवेट लिमिटेड
10.	103659	मैसर्स सनशाइन मोटल्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	89482	मैसर्स रखम ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
12.	108033	मैसर्स स्वांग फास्टनर्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	83181	मैसर्स स्मैशन इक्युन्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	23173	मैसर्स मीर्ष पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड
15.	18969	मैसर्स जयस गारमेन्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वासवानी बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुम्बई-400002, दिनांक 17 जून 2004

सं. 260/94063/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

मैसर्स वासवानी बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स दारूवाला फारमाकोन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुम्बई-400002, दिनांक 17 जून 2004

सं. 261/18400/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स दारूवाला फारमाकोन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स निकेतन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुम्बई-400002, दिनांक 17 जून 2004

सं. 259/87648/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स निकेतन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ओम साई एयर फ्राईट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुम्बई-400002, दिनांक 17 जून 2004

सं. 278/74494/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ओम साई एयर फ्राईट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बालवी इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुम्बई-400002, दिनांक 17 जून 2004

सं. 396/39270/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स बालवी इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हालीबुड रेस्टोरेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुम्बई-400002, दिनांक 17 जून 2004

सं. 395/75926/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स हालीबुड रेस्टोरेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रामविज इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुम्बई-400002, दिनांक 17 जून 2004

सं. 399/39467/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स रामविज इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बालाड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुम्बई-400002, दिनांक 17 जून 2004

सं. 398/39267/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स बालाड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सुनुदविज इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 17 जून 2004

सं. 397/39072/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सुनुदविज इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स न्यू एम्पायर मीलीनीमम् इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 17 जून 2004

सं. 294/124599/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स न्यू एम्पायर मीलीनीमम् इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित की गई है।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्रीन्स मीलीनीमम् इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 17 जून 2004

सं. 293/124567/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स प्रीन्स मीलीनीमम् इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित की गई है।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स फोर्म इंटरप्राइजेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 17 जून 2004

सं. 280/86654/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स फोर्म इंटरप्राइजेस प्राईवेट लिमिटेड से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित की गई है।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पोटेनशल ऑटो ऐनसीलरीस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 17 जून 2004

सं. 282/58736/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पोटेनशल ऑटो ऐनसीलरीस प्राईवेट लिमिटेड से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित की गई है।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आरकाडीया एनर्जी कन्स्ट्रक्शन्स लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 17 जून 2004

सं. 279/103669/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स आरकाडीया एनर्जी कन्स्ट्रक्शन्स लिमिटेड से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित की गई है।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रोगेस्को बीजनेस सेंटर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 17 जून 2004

सं. 271/128778/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती



है कि मैसर्स रोगेस्को बीजनेस सेंटर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इंडिया वेंचर कैपिटल  
(होलडींग्स) प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 17 जून 2004

सं. 262/41976/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स इंडिया वेंचर कैपिटल (होलडींग्स) प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रीवर वैली सोफ्टवेयर  
टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 17 जून 2004

सं. 257/54848/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रीवर वैली सोफ्टवेयर टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कपाडिया एण्ड बालेकुन्दरी  
कार्पोरेट सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 17 जून 2004

सं. 256/71728/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कपाडिया एण्ड बालेकुन्दरी कार्पोरेट सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मापकड इंडियासोफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 17 जून 2004

सं. 254/121857/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मापकड इंडियासोफ्ट प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पोटेंशिल रीसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 17 जून 2004

सं. 253/56491/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पोटेंशिल रीसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स क्रियेटिव रीयल इस्टेट  
डिवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 17 जून 2004

सं. 252/79239/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स क्रियेटिव रीयल इस्टेट डिवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अपेक्स लोजिस्टिकल प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 18 जून 2004

सं. 340/100142/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती

है कि मैसर्स अपेक्स लोजिस्टिकल प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नकेनको केन एण्ड पैकेजिंग  
इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 18 जून 2004

सं. 339/114990/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स नकेनको केन एण्ड पैकेजिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जोहन फेसरफेक्स साऊथ  
एशिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 18 जून 2004

सं. 337/131660/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जोहन फेसरफेक्स साऊथ एशिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कालसा इम्पेक्स प्राईवेट  
लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 18 जून 2004

सं. 336/121097/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

जाती है कि मैसर्स कालसा इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इम्पीयॉटी सिस्टीमा ज़ेल  
टेक्नोलोजी (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 18 जून 2004

सं. 335/114319/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स इम्पीयॉटी सिस्टीमा ज़ेल टेक्नोलोजी (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गीरीजात्मक कारगो लिफ्टर  
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 18 जून 2004

सं. 334/63946/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स गीरीजात्मक कारगो लिफ्टर प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स न्युकलेस मेडिकल सेन्टर  
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 18 जून 2004

सं. 332/52915/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

जाती है कि मैसर्स न्युकलेस मेडिकल सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

जाती है कि मैसर्स सी.वी. इंडिया वाल्व्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नायकाज इन्वेस्टमेंट्स एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 18 जून 2004

सं. 333/70094/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स नायकाज इन्वेस्टमेंट्स एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स किर्कवुड (इंडिया) कम्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 18 जून 2004

सं. 343/113525/560/9971--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स किर्कवुड (इंडिया) कम्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नीधक्रिस कन्सलटेंट्स एण्ड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 18 जून 2004

सं. 341/111525/560/9973--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स नीधक्रिस कन्सलटेंट्स एण्ड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स समस्ट्रोनिक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 18 जून 2004

सं. 344/103718/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स समस्ट्रोनिक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सी.वी. इंडिया वाल्व्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 18 जून 2004

सं. 342/114653/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वी. राज प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 23 जून 2004

सं. 255/29472/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

जाती है कि मैसर्स वी. राज प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों  
के विषय में।

बैंगलूर, दिनांक 18 जून 2004

सं. एसटीए/एनकेआर/560(3)/2004-05--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि अगर तीन महीने के अंदर उचित कारण न बताया गया तो निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उस दिन से कम्पनियां विघटित समझी जायेंगी :--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनियों का नाम
1.	6616	मैसर्स रजनीगन्दा इन्डस्ट्रीयल प्रमोटर्स लिमिटेड
2.	11710	मैसर्स श्री मयूर सरीकलचर्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	11697	मैसर्स दिव्याजोती लग्स प्राईवेट लिमिटेड।

बी. ए. एम. पी. रत्नास्वामी  
कम्पनियों के उप रजिस्ट्रार  
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों  
के विषय में।

बैंगलूर, दिनांक 7 जून 2004

सं. एसटीए/एनकेआर/560(3)/2004-05--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि अगर तीन महीने के अंदर उचित कारण न बताया गया तो निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उस दिन से कम्पनियां विघटित समझी जायेंगी :--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनियों का नाम
1	2	3
1.	14677	मैसर्स अचाला इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	10838	मैसर्स सोवरिन प्लोर मिल्स मि.
3.	7923	मैसर्स गोल्डनसिटी हाऊसिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
4.	9125	मैसर्स उषाकिरण पेपर्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	9709	मैसर्स प्रोफिन फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	9708	मैसर्स प्रोफिन चिट्स प्राईवेट लिमिटेड।

बी. ए. एम. पी. रत्नास्वामी  
कम्पनियों के उप रजिस्ट्रार  
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों  
के विषय में।

बैंगलूर, दिनांक 7 जून 2004

सं. एसटीए/एनकेआर/560(3)/2004-05--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि अगर तीन महीने के अंदर उचित कारण न बताया गया तो निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उस दिन से कम्पनियां विघटित समझी जायेंगी :--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनियों का नाम
1.	9534	मैसर्स एस. बी. द्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	11016	मैसर्स सोवरिन एडिबल ऑयिल प्राईवेट लिमिटेड

बी. ए. एम. पी. रत्नास्वामी  
कम्पनियों के उप रजिस्ट्रार  
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनी  
के विषय में।

बैंगलूर, दिनांक 7 जून 2004

सं. एसटीए/एनकेआर/560(3)/2004-05--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि अगर तीन महीने के अंदर उचित कारण न बताया गया तो निम्नलिखित कम्पनी का नाम रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उस दिन से कम्पनी विघटित समझी जायेंगी :--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	11826	मैसर्स जी. एच. इन्स्ट्रुमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड।

बी. ए. एम. पी. रत्नास्वामी  
कम्पनियों के उप रजिस्ट्रार  
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शिमोगा केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

बेंगलूर, दिनांक 21 जून 2004

सं. एसटीए/(आर)/6790/आरओसीबी/560(3)/2004-05--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि अगर तीन महीने के अंदर उचित कारण न बताया गया तो मैसर्स शिमोगा केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उस दिन से कंपनी विघटित समझी जायेगी।

बी. एम. आनन्द  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शियाराम फौनान्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

चेन्नई-600006, दिनांक 23 जून 2004

सं. 21889/560(3)/2004--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स शियाराम फौनान्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. मीनाक्षी  
सहायक कम्पनी पंजीयक  
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बिलवारया बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

चेन्नई-600006, दिनांक 21 जून 2004

सं. 10294/560(3)/2004--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स बिलवारया बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. मीनाक्षी  
सहायक कम्पनी पंजीयक  
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

कटक-753001, दिनांक 24 जून 2004

सं. आर ओ सी/एसईएस-560/2003/683--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनियों का नाम
1	2	3
1.	15-03449	मैसर्स वि-टेक कन्स्ट्रक्सन्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	15-01029	मैसर्स शर्वेश्वर क्रेडिट (इंडिया) लिमिटेड
3.	15-01308	मैसर्स उत्कल प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	15-05697	मैसर्स उत्कल कोस्ट-क्रश प्राईवेट लिमिटेड
5.	15-03722	मैसर्स शीला कंस्ट्रक्सन प्राईवेट लिमिटेड
6.	15-02057	मैसर्स उत्कल ब्रिक्वेटिंग प्राईवेट लिमिटेड
7.	15-02998	मैसर्स प्रितम कमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड
8.	15-00983	मैसर्स प्राची इन एण्ड साइन प्राईवेट लिमिटेड
9.	15-01716	मैसर्स कोनार्क एग्रो इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
10.	15-04564	मैसर्स सेवक फाइनेन्स एण्ड इनवेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
11.	15-04292	मैसर्स श्री फाइनेन्स एण्ड सिक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
12.	15-05026	मैसर्स डाइनेस्टी मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
13.	15-04438	मैसर्स ओडिसा रिसोर्सेज लिमिटेड
14.	15-03494	मैसर्स ग्रीनेज फार्म हाउस लिमिटेड
15.	15-01095	मैसर्स उत्कल रेमिडीज प्राईवेट लिमिटेड
16.	15-02138	मैसर्स ग्रीन वैली पोल्ट्री प्राईवेट लिमिटेड
17.	15-06184	मैसर्स एसिना फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	15-05827	मैसर्स जे. जे. इन्टरप्राइसेज प्राईवेट लिमिटेड
19.	15-02561	मैसर्स प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्सन्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	15-00412	मैसर्स कोनार्क फिलम्स प्राईवेट लिमिटेड
21.	15-00707	मैसर्स ब्लेगोल्ड प्राईवेट लिमिटेड
22.	15-02212	मैसर्स के. बी. ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
23.	15-00914	मैसर्स इस्टकोस्ट साल्वेन्ट एक्सट्रेक्सन प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
24.	15-01532	मैसर्स बरहमपुर बेजिटेबल मार्किट कम्प्लेक्स लिमिटेड	47.	15-03463	मैसर्स शिवा राइस इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
25.	15-01437	मैसर्स जजाती ट्रेवलर्स एण्ड टूरस् प्राईवेट लिमिटेड	48.	15-03863	मैसर्स श्री राम बिलडर्स डेवलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड
26.	15-06487	मैसर्स ड्रीम्स डिजिटल प्राईवेट लिमिटेड	49.	15-05512	मैसर्स शाहू त्रिभोजस प्राईवेट लिमिटेड
27.	15-05645	मैसर्स शीटी रियलटेक प्राईवेट लिमिटेड	50.	15-03721	मैसर्स एलायस एप्रोटेक प्राईवेट लिमिटेड
28.	15-01428	मैसर्स क्रोनार्क कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड	51.	15-05254	मैसर्स एपेक्स इलेक्ट्रो-टेक प्राईवेट लिमिटेड
29.	15-04002	मैसर्स शू एण्ड शो मेराइन फूड्स प्राईवेट लिमिटेड	52.	15-05319	मैसर्स सेटर्न ट्रांसपोर्ट एण्ड इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
30.	15-03866	मैसर्स मां भवानी फ्रिजर्स प्राईवेट लिमिटेड	53.	15-03812	मैसर्स एलायस इलेक्ट्रो-टेक प्राईवेट लिमिटेड
31.	15-02799	मैसर्स मयूर फाइनेंस एण्ड इनवेस्टमेंट (इंडिया) लिमिटेड	54.	15-05691	मैसर्स रिचस्टोन ग्लास एण्ड मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	15-01201	मैसर्स श्रीराम वायर गेलमनाइजिंग प्राईवेट लिमिटेड	55.	15-01623	मैसर्स ईस्टर्न इन्सुलेशन को. प्राईवेट लिमिटेड
33.	15-02522	मैसर्स इंडियन क्रोमाइट एण्ड फेरो एलोइज प्राईवेट लिमिटेड	56.	15-02015	मैसर्स गोलखन निटर्स प्राईवेट लिमिटेड
34.	15-00606	मैसर्स भंज एण्ड कं. (एजेंसीज) प्राईवेट लिमिटेड	57.	15-04142	मैसर्स एम. एम. मेराइन्स प्राईवेट लिमिटेड
35.	15-00979	मैसर्स उत्कल केश्यू इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	58.	15-05627	मैसर्स जेबीएस होटेल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
36.	15-04814	मैसर्स बायो प्रेंडली केमीकल्स इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	59.	15-02551	मैसर्स एन्स इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
37.	15-01821	मैसर्स गोदावरी पाली-प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	60.	15-05630	मैसर्स ओरिशिल प्राईवेट लिमिटेड
38.	15-06335	मैसर्स गौरीशंकर काजू प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	61.	15-02924	मैसर्स बालासोर हाउसिंग फाइनेंस एण्ड इनवेस्टमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
39.	15-05855	मैसर्स आयुश मेडिकोन प्राईवेट लिमिटेड	62.	15-04106	मैसर्स अगस्त प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
40.	15-05857	मैसर्स विरिदियन इलेक्ट्रिसिटी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	63.	15-05055	मैसर्स प्रदीप आक्सीजन प्राईवेट लिमिटेड
41.	15-04322	मैसर्स एरा सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	64.	15-04075	मैसर्स आर. कै. साफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
42.	15-04895	मैसर्स उर्मिला टिम्बर्स प्राईवेट लिमिटेड	65.	15-05978	मैसर्स राकुन्ता रियल एस्टेट एण्ड डेवलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड
43.	15-03851	मैसर्स एडलक्स शिफूड प्राईवेट लिमिटेड	66.	15-03813	मैसर्स आरती शिप्स प्राईवेट लिमिटेड
44.	15-05091	मैसर्स निलांचल एग्रीकल्चर्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	67.	15-04651	मैसर्स होटल कारुवकी लिमिटेड
45.	15-05650	मैसर्स श्री जगन्नाथ इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड	68.	15-01387	मैसर्स इन्दू प्राईवेट लिमिटेड
46.	15-05622	मैसर्स एम. एस. इन्टरटेनमेंट प्राईवेट लिमिटेड	69.	15-05826	मैसर्स साबित्री मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
			70.	15-03751	मैसर्स सि. कनटेक मीडिया प्राईवेट लिमिटेड
			71.	15-03591	मैसर्स मोदस कम्प्यूटर सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
			72.	15-04545	मैसर्स एमआरपी रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
73.	15-05517	मैसर्स शिखा शेल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
74.	15-04420	मैसर्स एकलव्य प्लान्टेसन्स प्राईवेट लिमिटेड
75.	15-06345	मैसर्स नेचुरल गैस पाइपलाइन लिमिटेड
76.	15-06197	मैसर्स गोपालपुर एलएनजी लिमिटेड
77.	15-06346	मैसर्स गोपालपुर फर्टिलाइजर लिमिटेड
78.	15-04247	मैसर्स इस्टर्न इंडिया केपिटल मार्केट्स प्राईवेट लिमिटेड
79.	15-02926	मैसर्स उत्कल जिक मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड
80.	15-01566	मैसर्स सेवक हाउसिंग प्राईवेट लिमिटेड
81.	15-02372	मैसर्स ज्योति पेपर्स एण्ड कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
82.	15-05210	मैसर्स पंचमुखी कन्सट्रक्शन्स एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
83.	15-02943	मैसर्स परफेक्ट इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
84.	15-02408	मैसर्स जी. इंजीनियरिंग कन्सलटेन्सी एण्ड कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
85.	15-01071	मैसर्स चिनमय केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
86.	15-02773	मैसर्स एग्रावेट प्राईवेट लिमिटेड
87.	15-02707	मैसर्स परफेक्ट हारमोनी प्राईवेट लिमिटेड
88.	15-05174	मैसर्स साइबरनेट सोल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
89.	15-04170	मैसर्स आरपीजी डब्ल्यूसा पावर कंपनी लिमिटेड
90.	15-04695	मैसर्स गामा फार्मस एण्ड एग्रोस प्राईवेट लिमिटेड
91.	15-04217	मैसर्स शेल्जवर्ग क्रियेशन्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
92.	15-01015	मैसर्स बी. एन. कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
93.	15-02146	मैसर्स माडर्न पालिपेक इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
94.	15-04037	मैसर्स युनिपेक लिमिटेड
95.	15-05633	मैसर्स फन्की इन्टरटेनमेंट प्राईवेट लिमिटेड
96.	15-05461	मैसर्स जिओसाफ्ट टेक्नोलॉजी (भुवनेश्वर) प्राईवेट लिमिटेड
97.	15-01908	मैसर्स श्री श्याम फाइनैस एण्ड इन्वेस्टमेंट को. प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
98.	15-01542	मैसर्स कलिंगा इलेक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
99.	15-01488	मैसर्स डब्ल्यूसा क्रोमेट्स एण्ड फिगमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
100.	15-02227	मैसर्स इन्डस्ट्रीयल कांसोर्टियम ऑफ उडिसा लिमिटेड
101.	15-05455	मैसर्स महावीर स्टोन्स एण्ड मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
102.	15-03780	मैसर्स गंजम झिम्प हेचरी प्राईवेट लिमिटेड
103.	15-01672	मैसर्स श्री अम्बीका ग्लास कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
104.	15-04040	मैसर्स कंपिलाश एगो फोरेस्ट्री (आई) लिमिटेड
105.	15-03320	मैसर्स शुभकामना सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
106.	15-02014	मैसर्स जैमिष नाइलेक्स प्राईवेट लिमिटेड
107.	15-05805	मैसर्स जे. के. कन्सोलिटेड सीमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
108.	15-03634	मैसर्स कलिंगा मेराइन एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
109.	15-02001	मैसर्स एलाइड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
110.	15-04330	मैसर्स एमकेएन एक्सपोर्ट लिमिटेड
111.	15-01332	मैसर्स मूलचांद हीरालाल प्राईवेट लिमिटेड
112.	15-05744	मैसर्स बि. बि. डि. डायरेज प्राईवेट लिमिटेड
113.	15-03079	मैसर्स ओरिफिन सेक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
114.	15-04112	मैसर्स म्युबल स्टील्स लिमिटेड
115.	15-04624	मैसर्स नारायण माडर्न एगो इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
116.	15-03281	मैसर्स आर. के. पोल्ट्री प्राईवेट लिमिटेड
117.	15-03885	मैसर्स महालक्ष्मी बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
118.	15-02775	मैसर्स इस्टकोस्ट ग्रिन्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
119.	15-02354	मैसर्स गीता एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
120.	15-03483	मैसर्स ओरिएंट ग्रीन फील्ड्स (इंडिया) लिमिटेड
121.	15-04180	मैसर्स श्री गणेश आइल्स प्राईवेट लिमिटेड
122.	15-05727	मैसर्स बलराम बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
123.	15-02170	मैसर्स पूर्वांचल कंस्ट्रक्शन एण्ड मेनुफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड	141.	15-04043	मैसर्स अभिषेक कंसलटेन्सी एण्ड कन्सल्टेंस प्राइवेट लिमिटेड
124.	15-04770	मैसर्स नीलगिरी ब्रोडिंग फार्म प्राइवेट लिमिटेड	142.	15-00672	मैसर्स भानू इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
125.	15-03615	मैसर्स क्वालिटी केमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	143.	15-03919	मैसर्स उड़ीसा पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
126.	15-02891	मैसर्स मेक्सी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	144.	15-01765	मैसर्स नियो पनेक्स फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
127.	15-03073	मैसर्स देवी आठेज प्राइवेट लिमिटेड	145.	15-04821	मैसर्स गजपति एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
128.	15-05720	मैसर्स अल्फा बिल्टेक एण्ड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	146.	15-03776	मैसर्स साइमोन्स एक्वाफार्म प्राइवेट लिमिटेड
129.	15-02828	मैसर्स उल ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड			बी. मोहन्ती
130.	15-04940	मैसर्स इस्टर्न होटेल्स एण्ड रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड			कंपनी रजिस्ट्रार
131.	15-04901	मैसर्स ब्रिज कम्यूनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड			उड़ीसा
132.	15-03557	मैसर्स इस्पात परिवार फाइनेंस लिमिटेड			
133.	15-05804	मैसर्स दासमोन कामर्सियल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड			कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।
134.	15-04407	मैसर्स क्राप्टो चेन्स लिमिटेड			कटक-753001, दिनांक 25 जून 2004
135.	15-05635	मैसर्स एडोरिन इन्फोरमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड			सं. आरओसी/एसईएस-560/2003/686--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :-
136.	15-06413	मैसर्स पराग एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड			
137.	15-05562	मैसर्स राजा रानी रियल एस्टेट एण्ड डेवलप्स प्राइवेट लिमिटेड			
138.	15-05488	मैसर्स नंदीघोष फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड			
139.	15-04992	मैसर्स पंचधारा सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड			
140.	15-03669	मैसर्स प्राइम मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड			

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनियों का नाम
01.	15-06120	मैसर्स ग्रीन प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड
02.	15-05848	मैसर्स एबीएस सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड।

बी. मोहन्ती  
कंपनी रजिस्ट्रार  
उड़ीसा



## SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 25th June 2004

No. F. 6/2004-SCA(I)—Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to appoint Shri B. M. Gupta, Registrar as a temporary Court Administrator-cum-Registrar General (Officer on Special Duty) in the Supreme Court of India with effect from afternoon of June 24, 2004, until further orders or for six months whichever is earlier.

A. I. CHEEMA  
Registrar (Admn.)

## CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi, the 23rd June 2004

No. 2/16/04/213-Admn—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri L. C. Sajnani, Private Secretary in the Commission as Principal Private Secretary in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- for a period of three months on adhoc basis with effect from 17.6.2004 (F/N) till further orders, whichever is earlier.

MANGE LAL  
Dy. Secy. (Admn.)

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DIRECTORATE GENERAL, CENTRAL RESERVE  
POLICE FORCE

New Delhi-110003, the 18th June 2004

No. O.II-1066/77-CRC (MOs).—Consequent on acceptance of his notice dated 04.03.2004 for voluntary retirement from Govt. service, Dr. Kapil Bhal, CMO (NFSG) (IRLA-1609) of Group Centre, CRPF, Imphal relinquished the charge of his post on the forenoon of 01.06.2004. Accordingly, his name stands deleted from the strength of the Force from 01.06.2004 (F/N).

J.N. SHARMA  
Addl. DIGP (Pers.I)

DIRECTORATE GENERAL, CENTRAL INDUSTRIAL  
SECURITY FORCE

New Delhi-110003, the 22nd June 2004

No. E-28017/5/DDG/Noti/2004/Pers.II/1362—Consequent to his retirement from Govt. service on attaining the age of superannuation, Shri D. D. Ghosh relinquished the charge of the post of Deputy Commandant, CISF Unit, ATPP Anapara, District Sonbhadra (UP) in the afternoon of 31.05.2004.

Sd/- ILLEGIBLE  
Director General/CISF

The 25th June 2004

No. E-28017/5/GSI/2004/Pers.II/1384—Consequent to his retirement from Govt. service on attaining the age of

superannuation, Shri G. S. Jauhal, relinquished the charge of the post of Senior Commandant, CISF Gp. HQrs Chandigarh in the afternoon of 31.05.2004.

Sd/- ILLEGIBLE  
Director General/CISF

No. E-16013(1)/1/UK/04/Pers. I/1388—On appointment as Deputy Inspector General in Central Industrial Security Force on deputation basis, Shri Umesh Kumar, IPS (AM : 84) reported at CISF Hqrs., New Delhi on 07.06.2004 (FN) and assumed the charge of the post of DIG (Fire) at Force Headquarters, New Delhi accordingly.

Sd/- ILLEGIBLE  
Director General/CISF

## MINISTRY OF FINANCE

## (DEPTT. OF ECONOMIC AFFAIRS)

## CURRENCY NOTE PRESS

Nashik Road, the 19th June 2004

No. 15 S/ESC-1-I0—Shri H. S. Ahire (SC), Inspector Control, Currency Note Press, Nashik Road is hereby promoted as Dy. Control Officer (Group 'B' Gazetted), purely on adhoc basis in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from 12.06.2004 to 11.12.2004 or till the post of Control Officer is filled, whichever is earlier.

The above adhoc promotion will not bestow on the promotee any claim for regular appointment and the adhoc service rendered by him would not count for the purpose of seniority in that grade for regular promotion. The above adhoc promotion is also liable for termination without assigning any reasons.

A. N. TINGLE  
General Manager

## SECURITY PAPER MILL

Hoshangabad (M.P.)-461005, the 22nd June 2004

No. 7(97)/2837—On attaining the age of superannuation Shri B. M. Chourey, Technical Officer (Mechanical) Security Paper Mill, Hoshangabad relinquished the charge of office of Technical Officer (Mechanical), Security Paper Mill, Hoshangabad on 30.06.2004 (AN) and the name stands deleted from the roll of Security Paper Mill, Hoshangabad with effect from that date.

ASHWINI KUMAR  
General Manager

No. 7(138)/2838—Based on the recommendations of the Group "B" Departmental Promotion Committees the undersigned is pleased to terminate the probation period of Shri P. K. Agarwal, Technical Officer (Production) with effect from 19.04.2003.

ASHWINI KUMAR  
General Manager

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT  
OFFICE OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR  
GENERAL OF INDIA

New Delhi-110002, the 28th June 2004

No. 3154-GE-I/176-98 (Vol-II)—The following IA & AS Officers have retired from Government Service from the date shown against their names :—

S/Shri

1. B. B. Manocha (Retired voluntarily with effect from 1.9.2003 (FN))
2. M. S. Ramakrishnan Retired voluntarily with effect from 29.4.2004 (FN)
3. P. V. Ramachandran Retired on superannuation with effect from 30.4.2004 (AN)

4. N. Joykutty -do-

5. T. K. Ghosh -do-

DEEPAK NARAIN  
Asstt. Comptroller & Auditor General (P)

No. 3155-GE-I/176-98 (Vol-II)—Shri Hem Raj Sharma, Senior Principal Private Secretary has retired voluntarily from Government service with effect from 27.4.2004 (FN).

DEEPAK NARAIN  
Asstt. Comptroller & Auditor General (P)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & CO-OPERATION)

DIRECTORATE OF MARKETING AND INSPECTION

NH-IV, Faridabad, the 24th June 2004

No. A. 19025/42/79 A.I.—On his attaining the age of superannuation Shri R. P. Jaiswal, Marketing Officer, Marketing Officer (Group-I) Directorate of Marketing and Inspection, DMI, Varanasi has retired from Govt. service with effect from 30.4.2004 (AN).

A. K. CHOPRA  
Under Secy.

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

(DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES)

Mumbai-400094, the 16th June 2004

No. DPS/10002/Rectt./2416—The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy has appointed Smt. K. S. Vijayalaxmi, Assistant Accountant, CAU, DPS, Mumbai as Assistant Accounts Officer in the Scale of pay of Rs. 7,450-225-11,500 on adhoc basis in the same Directorate w.e.f. 19.04.2004 (FN) to 27.05.2004 (AN).

Sd/- ILLEGIBLE  
Administrative Officer-III

NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad-500062, the 18th June 2004

No. NFC/Adm./Pen/EC-2929/359—Shri V. Chopra, Scientific Officer 'G' (Scale of pay of Rs. 16,400-450-20,000) of Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Hyderabad, who has retired from service voluntarily has relinquished the charge of the post with effect from 01.06.2004 (FN).

G KOTESWARA RAO  
Administrative Officer

HEAVY WATER BOARD

Mumbai-94, the 22nd June 2004

No. HWB/R/5 (2)-CO/2004/460—Chief Executive, Heavy Water Board, appoints Shri G. R. Rawool, Senior Clerk, Heavy Water Board (Central Office), Mumbai to officiate as Assistant Personnel Officer in the same office on adhoc basis in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500 with effect from December 1st, 2003 (Forenoon) to 28th May, 2004 (Afternoon).

D. S. RAO  
Administrative Officer

DEPARTMENT OF SPACE

INDIAN SPACE RESEARCH ORGANISATION

Bangalore-560094, the 17th March 2004

No. HQ: Adm. 12/25—The Scientific Secretary, ISRO is pleased to appoint Shri K. Gopalakrishnan as Personal Assistant-C (Rs. 6,500-200-10,500) at ISRO HQ, Bangalore with effect from March 10, 2004 and until further orders.

HANSA RAMAN  
Administrative Officer

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

INCOME TAX APPELLATE TRIBUNAL

Mumbai-400020, the 1st June 2004

CORRIGENDUM

No. F.71-Ad (AT)/2002—In this office Notification No. F. 71-Ad (AT)/2002 dated 08/04/2002 of Income-Tax (Appellate Tribunal) (Amendment) Rules, 2002 the word "appellant" appearing in the second line of the proviso of the Rule 25 should be read as "respondent"

BY ORDER  
Income Tax Appellate Tribunal

J. S. CHHILAR  
Registrar

## MINISTRY OF LABOUR &amp; EMPLOYMENT

## LABOUR BUREAU

Shirala-171004, the 30th June 2004

No. 5/1/2004-C.P.I.—The All-India Consumer Price Index Number for Industrial Workers on base : 1982=100 has increased by 4 points to stand at 508 (five hundred and eight) for the month of May, 2004

I. S. NEGI  
Dy. Director

## MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS

## (DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

## OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Memoirs Communications Private Limited

New Delhi-110003, the 8th January 2004

No. 560(3)/55/98985/597—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of 3 months from the date hereof, the name of M/s. Memoirs Communications Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

M. K. BAGRI  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sverdrup Civil India Ltd.

New Delhi-110003, the 7th April 2004

No. 560 (3)/55/109246/387—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of 3 months from the date hereof, the name of M/s. Sverdrup Civil India Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

M. K. BAGRI  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Brite International Casseters Pvt. Ltd.

Mumbai-400002, the 23rd October 2003

No. 370/19372/560-3851—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of 3 months from the date hereof, the name of M/s. Brite International Casseters Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and application under Fast Track Scheme Under Section 560 and of  
M/s. Greaves Midwest-Engineering Company Ltd.

Mumbai-400002, the 23rd October 2003

No. 2487/29978/560-3853—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 read with Circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000-CL. V dated 20.09.2000 the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc., having any objection to the above may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof.

M/s. Greaves Midwest Engineering Company Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act 1956 and of  
M/s. Servewell Industries Pvt. Ltd.

Mumbai-400002, the 23rd October 2003

No. 371/12360/560-3854—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, M/s. Servewell Industries Pvt. Ltd., unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. HDFC Webnet Services Ltd.

Mumbai-400002, the 23rd October 2003

No. 369/126964/560-3856—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, M/s. HDFC Webnet Services Ltd., unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Siddhivinayak Ports & Power Ltd.

Mumbai-400002, the 3rd November 2003

No. 223/126101/560/4001—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies

Act, 1956 and the name of M/s. Siddhivinayak Ports & Power Ltd. has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rolex Builders Pvt. Ltd.

Mumbai-400002, the 3rd November 2003

No. 225/57195/560/4000—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 and the name of M/s. Rolex Builders Pvt. Ltd. has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Web-Age Systems (India) Pvt. Ltd.

Mumbai-400002, the 3rd November 2003

No. 224/124278/560/3999—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 and the name of M/s. Web-Age Systems (India) Pvt. Ltd. has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sagar Texturisers Pvt. Ltd.

Mumbai-400002, the 3rd November 2003

No. 222/56907/560/3998—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 and the name of M/s. Sagar Texturisers Pvt. Ltd. has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Wagle Investments & Holdings Pvt. Ltd.

Mumbai-400002, the 3rd November 2003

No. 226/54690/560/3997—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 and the name of M/s. Wagle Investments & Holdings Pvt. Ltd. has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vimals Auto Pvt. Ltd.

Mumbai-400002, the 3rd November 2003

No. 203/50509/560/3996—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 and the name of M/s. Vimals Auto Pvt. Ltd. has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Virat Auto Pvt. Ltd.

Mumbai-400002, the 3rd November 2003

No. 204/54742/560/3995—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 and the name of M/s. Virat Auto Pvt. Ltd. has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Minoosh Enterprises Pvt. Ltd.

Mumbai-400002, the 3rd November 2003

No. 213/106742/560/3994—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 and the name of M/s. Minoosh Enterprises Pvt. Ltd. has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Semikron Semiconductors Pvt. Ltd.

Mumbai-400002, the 3rd November 2003

No. 219/97341/560/3993—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 and the name of M/s. Semikron Semiconductors Pvt. Ltd. has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Husami Developers Pvt. Ltd.

Mumbai-400002, the 3rd November 2003

No. 215/130268/560/3992—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (5) of Section 560 of the Companies

Act, 1956 and the name of M/s. Husami Developers Pvt. Ltd. has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Lehren Exports Pvt. Ltd.

Mumbai-400002, the 3rd November 2003

No. 212/116228/560/3991—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Lehren Exports Pvt. Ltd. has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mathurdas Vissanji Investment Pvt. Ltd.

Mumbai-400002, the 3rd November 2003

No. 2474/18153/560/3990—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mathurdas Vissanji Investments Pvt. Ltd. has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Balsara Financial Services Pvt. Ltd.

Mumbai-400002, the 3rd November 2003

No. 221/74504/560/3989—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Balsara Financial Services Pvt. Ltd. has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Verginity Traders Ltd.

Mumbai-400002, the 3rd November 2003

No. 214/68803/560/3988—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Verginity Traders Ltd. has

this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Hub Pharmaceutical Pvt. Ltd.

Mumbai-400002, the 03rd Nov 2003

No. 220/30708/560/3987—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Hub Pharmaceuticals Pvt. Ltd. has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shaurya Farms & Properties Pvt. Ltd.

Mumbai-400002, the 3rd November 2003

No. 216/116229/560/4002—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shaurya Farms & Properties Pvt. Ltd. has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Lehren Advertising Agency Pvt. Ltd.

Mumbai-400002, the 3rd November 2003

No. 218/116235/560/3986—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Lehren Advertising Agency Pvt. Ltd. has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and  
application under Fast Track Scheme and of the  
following Companies:—

Mumbai-400002, the 31st May 2004

No. ROC/560(3)/2000/9230—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 read with Circular No. 10/2000 vide letter

No. 1/5/2000-CL.V dated 20.09.2000 the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc. having any objection to the above may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof, the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Companies will be dissolved :—

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1.	22972	M/s. Rekharesh Management Consultants Pvt. Ltd.
2.	22818	M/s. Rama Hotels Pvt. Ltd.
3.	22082	M/s. Dyna Textchem Pvt. Ltd.
4.	21293	M/s. J.G. Shah Crimpon Pvt. Ltd.
5.	21008	M/s. Devyani Investment Pvt. Ltd.
6.	20799	M/s. Western India Fisheries Pvt. Ltd.
7.	20547	M/s. Panafric Exports Pvt. Ltd.
8.	1210	M/s. Chacahaty & Thackersey Pvt. Ltd.
9.	5276	M/s. Anglo American Dye Stuff Corporation Pvt. Ltd.
10.	11353	M/s. Saurashtra Electrical & Metal Industries Pvt. Ltd.
11.	13376	M/s. Killick Industrial Services Pvt. Ltd.
12.	15777	M/s. Hiro Holdings Pvt. Ltd.
13.	17837	M/s. All India Man Made Textile Mfgs. Association Ltd.
14.	19277	M/s. Asha Exports Pvt. Ltd.
15.	19505	M/s. Gogte Minerals Pvt. Ltd.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and application under Fast Track Scheme and of the following Companies

Mumbai-400002, the 31st May 2004

No. ROC/560(3)/2000/9214.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 read with circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000-CL.V dated 20.09.2000 the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc. having any objection to the above may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof, the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Companies will be dissolved :—

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	29551	M/s. Indira Lalwani Medical Research Centre
2.	29311	M/s. Dadlani Realtors Pvt. Ltd.
3.	28944	M/s. Vishwa Bharath Equipment Leasing Co. Pvt. Ltd.

1	2	3
4.	28694	M/s. Shreeji Distributors Pvt. Ltd.
5.	28226	M/s. Ayr Housing Premises Pvt. Ltd.
6.	28206	M/s. Anand Inorganochem Pvt. Ltd.
7.	25993	M/s. Tinan Trading & Investment Pvt. Ltd.
8.	25607	M/s. Nija Holding Pvt. Ltd.
9.	25597	M/s. Cajan Holding Pvt. Ltd.
10.	25533	M/s. Sandarsh Investments Pvt. Ltd.
11.	24659	M/s. Shah Management & Taxation Consultants Pvt. Ltd.
12.	24388	M/s. Noshir Consultants Pvt. Ltd.
13.	24354	M/s. Acme Holdings Pvt. Ltd.
14.	24164	M/s. Triton Offshore Pvt. Ltd.
15.	23660	M/s. Parla Hotels Pvt. Ltd.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and application under Fast Track Scheme and of the following Companies

Mumbai-400002, the 31st May 2004

No. ROC/560(3)/2000/9246.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 read with circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000-CL.V dated 20.09.2000 the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc. having any objection to the above may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof, the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Companies will be dissolved :—

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	18740	M/s. Esdee Indenting House Pvt. Ltd.
2.	107332	M/s. Jaysons Fuel Pipes Pvt. Ltd.
3.	67151	M/s. Brahachaitanya Offset Pvt. Ltd.
4.	20498	M/s. Kantilal Keshavlal Appliances Pvt. Ltd.
5.	27879	M/s. Khetan Cloth Mills Pvt. Ltd.
6.	27458	M/s. Rikhav Trading Company Pvt. Ltd.
7.	27286	M/s. Randal Exports Pvt. Ltd.
8.	27103	M/s. Consolidated Transporters Pvt. Ltd.

1	2	3
9.	26702	M/s. Delstar Shipping & Trading Pvt. Ltd.
10.	26252	M/s. Purohit Auto Products Pvt. Ltd.
11.	28182	M/s. Three "M" Financial Investment & Consultants Pvt. Ltd.
12.	29713	M/s. TP Plastics Pvt. Ltd.
13.	29712	M/s. Irmc Plastics Pvt. Ltd.
14.	29711	M/s. Shard Plastics Pvt. Ltd.
15.	25994	M/s. Nangat Trading & Investment Pvt. Ltd.

**SHYAM SUNDER**  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and application under Fast Track Scheme and of the following Companies

Mumbai-400002, the 31st May 2004

No. ROC/560(3)/2000/9248.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 read with circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000-CL.V dated 20.09.2000 the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc. having any objection to the above may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof, the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Companies will be dissolved :—

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1.	45428	M/s. Ricci Chem Plast Pvt. Ltd.
2.	45016	M/s. Tunga Engineering Works Pvt. Ltd.
3.	43534	M/s. Jethwani Investment Pvt. Ltd.
4.	43330	M/s. Romance Synthetics Pvt. Ltd.
5.	43278	M/s. Shri Sati Jati Construction & Development Ltd.
6.	43175	M/s. Hareesh Investments Pvt. Ltd.
7.	42450	M/s. Premier Blow Pack Industries Pvt. Ltd.
8.	42285	M/s. Kaypee Leasing Pvt. Ltd.
9.	42270	M/s. Efficient Electromech Pvt. Ltd.
10.	42220	M/s. Matlaram & Sons Textiles Pvt. Ltd.
11.	42098	M/s. Lotus System Development Pvt. Ltd.
12.	41786	M/s. Nimesh Sales Pvt. Ltd.
13.	41750	M/s. Unilab Diagnostic Centre Pvt. Ltd.
14.	41230	M/s. Canvil Consultancy Services Pvt. Ltd.
15.	41098	M/s. Subhash Airconditioning Pvt. Ltd.

**SHYAM SUNDER**  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and application under Fast Track Scheme and of the following Companies

Mumbai-400002, the 31st May 2004

No. ROC/560(3)/2000/9249.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 read with circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000-CL.V dated 20.09.2000 the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc. having any objection to the above may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof, the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Companies will be dissolved :—

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1.	40023	M/s. Twentyfirst Century Fabrics Pvt. Ltd.
2.	49768	M/s. Zaka Hotel Pvt. Ltd.
3.	49735	M/s. Sushrut Diagnostic Centre Pvt. Ltd.
4.	49425	M/s. Indrani Industrial Products Pvt. Ltd.
5.	49232	M/s. Daman Industrial Estate Ltd.
6.	49078	M/s. Spares Right Engineers Pvt. Ltd.
7.	48995	M/s. Indian Latex Industries Pvt. Ltd.
8.	48955	M/s. Perfect Combustion Pvt. Ltd.
9.	48576	M/s. Medi Containers (Bombay) Pvt. Ltd.
10.	47847	M/s. IVI Controls Pvt. Ltd.
11.	47275	M/s. Hamjeelon Synthetics Pvt. Ltd.
12.	47054	M/s. Yards Electronics Consultants Pvt. Ltd.
13.	46336	M/s. Lo-Ha Wire Manufacturing Pvt. Ltd.
14.	45652	M/s. Prince Chemicals Pvt. Ltd.

**SHYAM SUNDER**  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and application under Fast Track Scheme and of the following Companies

Mumbai-400002, the 7th June 2004

No. ROC/560(3)/2000/9320.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 read with circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000-CL.V dated 20.09.2000 the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc. having any objection to the above may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof, the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Companies will be dissolved.

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1.	56757	M/s. Asdiqas-Ai-Asdiqas Exports Pvt. Ltd.
2.	77759	M/s. Easli Agro Industries Ltd.

1	2	3
3.	31973	M/s. Universal Intermediates Pvt. Ltd.
4.	58563	M/s. Parasmani Capital Markets Ltd.
5.	59988	M/s. Professional Food Service Pvt. Ltd.
6.	58353	M/s. Banthia Builders Pvt. Ltd.
7.	56866	M/s. Kusumgar Apparel Textiles Pvt. Ltd.
8.	55858	M/s. Anuradha Exports Pvt. Ltd.
9.	55342	M/s. Kalpak Industries Ltd.
10.	55109	M/s. Yash Export Import Pvt. Ltd.
11.	54740	M/s. Vinyl Organics Pvt. Ltd.
12.	54659	M/s. Regency Inn (Ahmedabad) Pvt. Ltd.
13.	54506	M/s. Nemox Chemical Industries Pvt. Ltd.
14.	53124	M/s. Chhulak Steel Industries Ltd.
15.	52759	M/s. Tacit Finance & Investment Pvt. Ltd.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and  
application under Fast Track Scheme and of the  
following Companies

Mumbai-400002, the 7th June 2004

No. ROC/560(3)/2000/9453.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 read with circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000-CL.V dated 20.09.2000 the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc. having any objection to the above may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof, the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Companies will be dissolved :—

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1.	107538	M/s. Rajmudra Concast Pvt. Ltd.
2.	107862	M/s. Arvi Computech Ltd.
3.	109263	M/s. Vijayatam Dwellers Pvt. Ltd.
4.	109848	M/s. Kailash Monetary Services Pvt. Ltd.
5.	110021	M/s. Jaikrian Salt Supply Pvt. Ltd.
6.	110047	M/s. Cryptogam Products Pvt. Ltd.
7.	110857	M/s. Shalom Thermopack Pvt. Ltd.
8.	111506	M/s. R.S. Foils Pvt. Ltd.
9.	111582	M/s. Instruments & Machines (Bombay) Pvt. Ltd.
10.	112784	M/s. United Earth Movers Pvt. Ltd.

1	2	3
11.	112842	M/s. Salute Marketing Links Pvt. Ltd.
12.	114749	M/s. Federation of Man Made Textiles Traders Associations.
13.	98082	M/s. Samlot (India) Travels Pvt. Ltd.
14.	27486	M/s. Atash Engineering Industries Pvt. Ltd.

SHYAM SUNDER  
Asstt. registrar Companies,  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and  
application under Fast Track Scheme and of the  
following Companies

Mumbai-400002, the 7th June 2004

No. ROC/560(3)/2000/9504.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 read with circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000-CL.V dated 20.09.2000 the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc. having any objection to the above may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof, the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Companies will be dissolved :—

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1.	56248	M/s. Mazda Holdings Pvt. Ltd.
2.	18839	M/s. Aggarwal Publishers Pvt. Ltd.
3.	41882	M/s. Subhakar Textiles Pvt. Ltd.
4.	56455	M/s. Cherry Systems Pvt. Ltd.
5.	94512	M/s. Astonish Cosmetics Pvt. Ltd.
6.	68348	M/s. Smith Engineering Marketing Pvt. Ltd.
7.	56562	M/s. Brij Metals Pvt. Ltd.
8.	75400	M/s. G.M. Agro-Food Products Ltd.
9.	96978	M/s. Almeida Capital Ltd.
10.	56405	M/s. Atixt Computers (India) Pvt. Ltd.
11.	112730	M/s. Mata Dhanalaxmi Finance Pvt. Ltd.
12.	69067	M/s. Dakle Finance Pvt. Ltd.
13.	56232	M/s. Ganaesh Radio & T.V. Agencies Pvt. Ltd.
14.	122329	M/s. Vatsalya Agro Products Pvt. Ltd.
15.	52069	M/s. Razdan Cutting Dies Pvt. Ltd.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies,  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and  
application under Fast Track Scheme and of the  
following Companies

Mumbai-400002, the 7th June 2004

No. ROC/560(3)/2000/9437.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies



Act, 1956 read with circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000-CL.V dated 20.09.2000 the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc. having any objection to the above may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof, the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Companies will be dissolved :—

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1.	100676	M/s. South Kanara Capital & Finance Pvt. Ltd.
2.	101425	M/s. Adi-Fin Stock Pvt. Ltd.
3.	101521	M/s. Micro Gate Network Pvt. Ltd.
4.	102106	M/s. Gold Mohar Capital & Leasing Ltd.
5.	102470	M/s. Saiprakash Leasing & Finance Pvt. Ltd.
6.	102946	M/s. Shringesh Finance & Leasing Pvt. Ltd.
7.	103547	M/s. Surgana Hitech Farm Pvt. Ltd.
8.	103604	M/s. Hemant Caterers Pvt. Ltd.
9.	103699	M/s. Vedant Herbal & Plant Formulation Pvt. Ltd.
10.	103879	M/s. Fountainhead Consultants Pvt. Ltd.
11.	105364	M/s. TTI GPC Energy Ltd.
12.	105532	M/s. Suvedha Financial Services Pvt. Ltd.
13.	106523	M/s. Chavan's Inno Agro-Forts Pvt. Ltd.
14.	106778	M/s. Bharadwaj & Bharadwaj Management Consultants Pvt. Ltd.
15.	107162	M/s. Fast Engineers & Trade Pvt. Ltd.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and application under Fast Track Scheme and of the following Companies

Mumbai 400002, the 11th June 2004

No. ROC/560(3)/2000/9738.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 read with circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000-CL.V dated 20.09.2000 the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc. having any objection to the above may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof, the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Companies will be dissolved :—

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	71295	M/s. Intercon Investment Services Pvt. Ltd.
2.	47578	M/s. Dream River Village Resort Pvt. Ltd.

1	2	3
3.	34490	M/s. Shree Krupa Trade & Agency Ltd.
4.	76346	M/s. Kshitiz Financial Services Pvt. Ltd.
5.	28661	M/s. Punganur Consultancy Services Pvt. Ltd.
6.	41943	M/s. Shree Bhagwan Lease And Finance Ltd.
7.	37166	M/s. Kaushal Fastners Pvt. Ltd.
8.	13024	M/s. Rama Rajya Social Club Ltd.
9.	25987	M/s. Mimaprisi Trading & Investment Pvt. Ltd.
10.	25213	M/s. S.V. Kathrani Finance And Investment Pvt. Ltd.
11.	31181	M/s. Screen Investment Pvt. Ltd.
12.	33166	M/s. Universal Cloth Manufactures Pvt. Ltd.
13.	119574	M/s. Strand Hotel Pvt. Ltd.
14.	104676	M/s. AV Fin Securities Ltd.
15.	100531	M/s. Chetan Bath Decor Pvt. Ltd.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and application under Fast Track Scheme and of the following Companies

Mumbai 400002, the 11th June 2004

No. ROC/560(3)/2000/9785.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 read with circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000-CL.V dated 20.09.2000 the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc. having any objection to the above may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof, the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Companies will be dissolved :—

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	45052	M/s. Mahavir Exports Pvt. Ltd.
2.	22942	M/s. Ashwin Electromat (India) Ltd.
3.	45864	M/s. Ramlaw Publishers & Consultants Pvt. Ltd.
4.	105601	M/s. Tugg Products (India) Pvt. Ltd.
5.	42902	M/s. Shah Footwears Pvt. Ltd.
6.	25738	M/s. Scientific Research & Development Foundation Pvt. Ltd.
7.	72112	M/s. Zarhak Polymers Pvt. Ltd.
8.	44918	M/s. Akshar Doors Pvt. Ltd.
9.	15192	M/s. Maharashtra Winneries Pvt. Ltd.
10.	31498	M/s. Plenum Financial & Investment (India) Pvt. Ltd.

1	2	3
11.	18705	M/s. Shashi Properties & Industries Ltd.
12.	40610	M/s. Primetime T.V. Productions Pvt. Ltd.
13.	38085	M/s. Mas Textiles Pvt. Ltd.
14.	40555	M/s. Galaxy Information Systems & Technology Ltd.
15.	16018	M/s. Plynet Traders Pvt. Ltd.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and  
application under Fast Track Scheme and of the  
following Companies

Mumbai 400002, the 11th June 2004

No. ROC/560(3)/2000/9801—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 read with circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000-CL.V dated 20.09.2000 the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc. having any objection to the above may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof, the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Companies will be dissolved:—

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	93065	M/s. Prabhavshali Builders & Developers Pvt. Ltd.
2.	88500	M/s. Avon Vacuum Coater Pvt. Ltd.
3.	44496	M/s. Uttam Diamond Tools & Sintered Products Pvt. Ltd.
4.	37553	M/s. Shree Bhairav Builders Pvt. Ltd.
5.	36443	M/s. Almeida Builders & Land Developers Pvt. Ltd.
6.	100750	M/s. Patil Exports Pvt. Ltd.
7.	7641	M/s. Nila Products Ltd.
8.	3325	M/s. J.B. Maneckji and Company Pvt. Ltd.
9.	78897	M/s. Chheda Bearings Pvt. Ltd.
10.	23171	M/s. Prakash Agro Industries Pvt. Ltd.
11.	25163	M/s. M.C. Kathrani Investment & Finance Pvt. Ltd.
12.	96229	M/s. Raypack India Pvt. Ltd.
13.	12997	M/s. K.S.P. Mechanical & Electronics Inds. Pvt. Ltd.
14.	65943	M/s. Sotex Exports Pvt. Ltd.
15.	25162	M/s. J.C. Katharani Investment & Finance Pvt. Ltd.
15.	27551	M/s. C.O.S. Agencies.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and  
application under Fast Track Scheme and of the  
following Companies

Mumbai 400002, the 11th June 2004

No. ROC/560(3)/2000/9721.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 read with circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000-CL.V dated 20.09.2000 the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc. having any objection to the above may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof, the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Companies will be dissolved:—

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1.	45044	M/s. Khambati Daimond Tools Pvt. Ltd.
2.	41432	M/s. Legend Leasing Pvt. Ltd.
3.	63530	M/s. Grant Chemicals Pvt. Ltd.
4.	72624	M/s. Nag Proteins (India) Ltd.
5.	42843	M/s. Kuwelkar Flexpak Pvt. Ltd.
6.	34761	M/s. Anamol Builders Pvt. Ltd.
7.	93903	M/s. Vaishnav Capital Pvt. Ltd.
8.	50189	M/s. Parshuram Organics Pvt. Ltd.
9.	88557	M/s. Tiger Capital & Finance Pvt. Ltd.
10.	33454	M/s. Ankit Exports Pvt. Ltd.
11.	22254	M/s. Sonal Soaps & Chemicals Pvt. Ltd.
12.	99897	M/s. Raj Yash Leasing & Finance Pvt. Ltd.
13.	92020	M/s. Shree Sai Ganesh Earth Movers Pvt. Ltd.
14.	97515	M/s. Ell Ess Simaco (India) Pvt. Ltd.
15.	19507	M/s. The Belgaum Commercial Agencies & Investments Pvt. Ltd.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and  
application under Fast Track Scheme and of the  
following Companies

Mumbai 400002, the 11th June 2004

No. ROC/560(3)/2000/9705.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 read with circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000-CL.V dated 20.09.2000 the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc. having any objection to the above may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof, the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Companies will be dissolved:—

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1.	51402	M/s. Jugal Fabricators Pvt. Ltd.
2.	52368	M/s. Ramesh Kulkarni Communications Pvt. Ltd.
3.	50849	M/s. Raikundaliya Food Products Pvt. Ltd.
4.	50828	M/s. Rikrak Electronics (Bombay) Pvt. Ltd.
5.	53597	M/s. Shree Balaji Copier Services Pvt. Ltd.
6.	51412	M/s. J. Jaswantlal & Bros Pvt. Ltd.
7.	42950	M/s. Rikhab Synthetics Pvt. Ltd.
8.	38550	M/s. Mrugdeep Fabrics Pvt. Ltd.
9.	76183	M/s. G.M. Transport Pvt. Ltd.
10.	34464	M/s. J.R. Shah Medical Foundation.
11.	100470	M/s. Pranidh Leasing Pvt. Ltd.
12.	72949	M/s. Prathibha Safety Instruments Pvt. Ltd.
13.	44643	M/s. Gayatri Vinyl Pvt. Ltd.
14.	81794	M/s. Nilsuna Investment Pvt. Ltd.
15.	63615	M/s. Rujikon Surgicals Pvt. Ltd.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and application under Fast Track Scheme and of the following Companies

Mumbai-400002, the 17th June 2004

No. ROC/560(3)/2000/9897—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 read with circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000-CL.V dated 20.09.2000 the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc. having any objection to the above may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof, the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Companies will be dissolved:—

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	55413	M/s. Kalavar Exports Pvt. Ltd.
2.	48550	M/s. Ramtronix Engineering Pvt. Ltd.
3.	51762	M/s. Chirag Granites Ltd.
4.	116887	M/s. Egvantage Foods Pvt. Ltd.
5.	59865	M/s. Veldon Aluminium Ltd.
6.	59305	M/s. Hotel Bhagyashree Ltd.
7.	65682	M/s. Standard Fashion Export Pvt. Ltd.
8.	43404	M/s. Summit Consultants Pvt. Ltd.
9.	112914	M/s. Khandesh Acyteline & Oxygen Pvt. Ltd.

1	2	3
10.	103659	M/s. Sunshine Motels Pvt. Ltd.
11.	89482	M/s. Rakham Trading Pvt. Ltd.
12.	108033	M/s. Swang Fastners Pvt. Ltd.
13.	83181	M/s. Smash Equines Pvt. Ltd.
14.	23173	M/s. Mirp Packaging Pvt. Ltd.
15.	18969	M/s. Jays Garments And Exports Pvt. Ltd.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Vaswani Builders Pvt. Ltd.

Mumbai-400002, the 17th June 2004

No. 260/94063/560/9923—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 and the name of M/s. Vaswani Builders Pvt. Ltd. has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Daruvala Pharmakon Pvt. Ltd.

Mumbai-400002, the 17th June 2004

No. 261/18400/560/9921—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 and the name of M/s. Daruvala Pharmakon Pvt. Ltd. has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies act, 1956 and of M/s. Niketan Exports Pvt. Ltd.

Mumbai-400002, the 17th June 2004

No. 259/87648/560/9922—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 and the name of M/s. Niketan Exports Pvt. Ltd. has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Om Sai Airfreight Pvt. Ltd.

Mumbai-400002, the 17th June 2004

No. 278/74494/560/9919—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 and the name of M/s. Om Sai Airfreight Pvt. Ltd.

has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Balvy Investments Private Limited.

Mumbai-400002, the 17th June 2004

No. 396/39270/560/9882—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of 3 months from the date hereof the name of M/s. Balvy Investments Private Limited, unless cause is shown to the contrary will be struck off from the register and the said company will be dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Hollywood Restaurants Pvt. Limited

Mumbai-400002, the 17th June 2004

No. 395/75926/560/9885—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of 3 months from the date hereof the name of M/s. Hollywood Restaurants Pvt. Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the register and the said company will be dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ramvij Investments Pvt. Limited

Mumbai-400002, the 17th June 2004

No. 399/39467/560/9888—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of 3 months from the date hereof the name of M/s. Ramvij Investments Pvt. Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the register and the said company will be dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Baluad Investments Pvt. Limited

Mumbai-400002, the 17th June 2004

No. 398/39267/560/9891—Notice is hereby given pursuant to sub-section 3 of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of 3 months from the date hereof the name of M/s. Baluad Investments Pvt. Limited

unless cause is shown to the contrary will be struck off from the register and the said company will be dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sunudvij Investments Pvt. Limited

Mumbai-400002, the 17th June 2004

No. 397/39072/560/9894—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of 3 months from the date hereof the name of M/s. Sunudvij Investments Pvt. Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the register and the said company will be dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. New Empire Millennium Infotech Pvt. Limited

Mumbai-400002, the 17th June 2004

No. 294/124599/560/9914—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 and the name of M/s. New Empire Millennium Infotech Pvt. Limited has this day been struck off from the register and the said company is dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Prince Millennium Infotech Pvt. Limited

Mumbai-400002, the 17th June 2004

No. 293/124567/560/9915—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 and the name of M/s. Prince Millennium Infotech Pvt. Limited has this day been struck off from the register and the said company is dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Forum Enterprises Pvt. Limited

Mumbai-400002, the 17th June 2004

No. 280/86654/560/9916—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Compa-

nies Act, 1956 and the name of M/s. Forum Enterprises Pvt. Limited has this day been struck off from the register and the said company is dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Potential Auto Ancillaries Pvt. Limited

Mumbai-400002, the 17th June 2004

No. 282/58736/560/9917—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 and the name of M/s. Potential Auto Ancillaries Pvt. Limited has this day been struck off from the register and the said company is dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Arcadia Energy Constructions Limited

Mumbai-400002, the 17th June 2004

No. 279/103669/560/9918—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 and the name of M/s. Arcadia Energy Constructions Limited has this day been struck off from the register and the said company is dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Regesco Business Centres (I) Pvt. Limited

Mumbai-400002, the 17th June 2004

No. 271/128778/560/9920—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 and the name of M/s. Regesco Business Centres (I) Pvt. Limited has this day been struck off from the register and the said company is dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. India Venture Capital (Holdings) Pvt. Limited

Mumbai-400002, the 17th June 2004

No. 262/41976/560/9932—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 and the name of M/s. India Venture Capital (Holdings) Pvt. Limited has this day been struck off from the register and the said company is dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. River Valley Software Technologies Pvt. Limited

Mumbai-400002, the 17th June 2004

No. 257/54848/560/9933—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 and the name of M/s. River Valley Software Technologies Pvt. Limited has this day been struck off from the register and the said company is dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kapadia & Balekundri Corporate Services Pvt.  
Limited

Mumbai-400002, the 17th June 2004

No. 256/71728/560/9934—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 and the name of M/s. Kapadia & Balekundri Corporate Services Pvt. Limited has this day been struck off from the register and the said company is dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mapcad India Soft Pvt. Limited

Mumbai-400002, the 17th June 2004

No. 254/121857/560/9935—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 and the name of M/s. Mapcad India Soft Pvt. Limited has this day been struck off from the register and the said company is dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Potential Resort Pvt. Limited

Mumbai-400002, the 17th June 2004

No. 253/56491/560/9936—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 and the name of M/s. Potential Resort Pvt. Limited has this day been struck off from the register and the said company is dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Creative Real Estate Developers Pvt. Limited

Mumbai-400002, the 17th June 2004

No. 252/79239/560/9937—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies

Act, 1956 and the name of M/s. Creative Real Estate Developers Pvt. Limited has this day been struck off from the register and the said company is dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Apex Logistics Pvt. Limited

Mumbai-400002, the 18th June 2004

No. 340/100142/560/9974—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 and the name of M/s. Apex Logistics Pvt. Limited has this day been struck off from the register and the said company is dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Nacanco Can & Packaging India Pvt. Limited

Mumbai-400002, the 18th June 2004

No. 339/114990/560/9975—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 and the name of M/s. Nacanco Can & Packaging India Pvt. Limited has this day been struck off from the register and the said company is dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. John Fairfax South Asia Pvt. Limited

Mumbai-400002, the 18th June 2004

No. 337/131660/560/9976—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 and the name of M/s. John Fairfax South Asia Pvt. Limited has this day been struck off from the register and the said company is dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kalsa Impex Pvt. Limited

Mumbai-400002, the 18th June 2004

No. 336/121097/560/9977—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 and the name of M/s. Kalsa Impex Pvt. Limited has this day been struck off from the register and the said company is dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Impianti Sistema Gel Technology (India) Pvt.  
Limited

Mumbai-400002, the 18th June 2004

No. 335/114319/560/9978—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 and the name of M/s. Impianti Sistema Gel Technology (India) Pvt. Limited has this day been struck off from the register and the said company is dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Girijatmack Cargo Lifter Pvt. Limited

Mumbai-400002, the 18th June 2004

No. 334/63946/560/9979—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 and the name of M/s. Girijatmack Cargo Lifter Pvt. Limited has this day been struck off from the register and the said company is dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Nucleus Medical Centre Pvt. Limited

Mumbai-400002, the 18th June 2004

No. 332/52915/560/9980—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 and the name of M/s. Nucleus Medical Centre Pvt. Limited has this day been struck off from the register and the said company is dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Naikaj Investment & Trading Co. Pvt. Limited

Mumbai-400002, the 18th June 2004

No. 333/70094/560/9981—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 and the name of M/s. Naikaj Investment & Trading Co. Pvt. Limited has this day been struck off from the register and the said company is dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Nidhkris Consultants & Services Pvt. Limited

Mumbai-400002, the 18th June 2004

No. 341/111525/97/9973—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 and the name of M/s. Nidhkris Consultants & Services Pvt. Limited has this day been struck off from the register and the said company is dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. CV India Valves Pvt. Limited

Mumbai-400002, the 18th June 2004

No. 342/114653/560/9972—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 and the name of M/s. CV India Valves Pvt. Limited has this day been struck off from the register and the said company is dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kirkwood (India) Communications Pvt. Limited

Mumbai-400002, the 18th June 2004

No. 343/113525/560/9971—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 and the name of M/s. Kirkwood (India) Communications Pvt. Limited has this day been struck off from the register and the said company is dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Samstronics (India) Pvt. Limited

Mumbai-400002, the 18th June 2004

No. 344/103718/560/9970—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 and the name of M/s. Samstronics (India) Pvt. Limited has this day been struck off from the register and the said company is dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. B. Raj Plastics Pvt. Limited

Mumbai-400002, the 23rd June 2004

No. 255/29472/560/10104—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies

Act, 1956 and the name of M/s. B. Raj Plastics Pvt. Limited has this day been struck off from the register and the said company is dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies

Bangalore-560034, the 18th June 2004

No. STA/NKR/560(3)/2004-05—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of Three Months from the date hereof, the name of the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the register and the said Companies will be dissolved.

Sr. No.	Co. No.	Name of the Company
1.	6616	Rajnigandha Industrial Promoters Limited
2.	11710	Sri Mayur Sericultures Private Limited
3.	11697	Divyajyothy Lugs Private Limited

B.A.M.P. RATHNA SAMI  
Dy. Registrar of Companies  
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies

Bangalore-560034, the 7th June 2004

No. STA/NKR/560(3)/2004-05—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of Three Months from the date hereof, the name of the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Companies will be dissolved.

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1.	14677	Achala Investments Pvt. Ltd.
2.	10838	Soverign Flour Mills Ltd.
3.	7923	Goldenclity Housing & Constructions Pvt. Ltd.
4.	9125	Ushakran Papers & Boards Pvt. Ltd.
5.	9709	Profin Finance Pvt. Ltd.
6.	9708	Profin Chits Pvt. Ltd.

B.A.M.P. RATHNA SAMI  
Dy. Registrar of Companies  
Karnataka

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
the following Companies

Bangalore-560034, the 7th June 2004

No. STA/NKR/560(3)/2004-05—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of Three Months from the date hereof, the name of the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Companies will be dissolved.

Sr. No.	Co. No.	Name of the Company
1.	9534	S.B. Tubes Pvt. Ltd.
2.	11016	Soverign Edible Oil Pvt. Ltd.

B.A.M.P. RATHNA SAMI  
Dy. Registrar of Companies  
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. G. H. Instruments Private Limited

Bangalore-560034, the 7th June 2004

No. STA/NKR/560(3)/11826/2004-05—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of Three Months from the date hereof, the name of the company, M/s. G.H. Instruments Private Limited (Co. No. 11826) unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

B.A.M.P. RATHNA SAMI  
Dy. Registrar of Companies  
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shimoga Chemicals Private Limited

Bangalore-560034, the 21st June 2004

No. STA(R)/6790/ROCB/560(3)/2004-05—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of Three Months from the date hereof, the name of the company, M/s. Shimoga Chemicals Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

B. M. ANAND  
For Registrar of Companies  
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shyaram Finance Private Limited

Chennai-600006, the 23rd June 2004

No. DN/21889/560(3)/2004—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the company, M/s. Shyaram Finance

Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

S. MEENAKSHI  
Asstt. Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vilvaraya Builders Private Limited

Chennai-600006, the 21st June 2004

No. DN/10294/560(3)/2004—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the company, M/s. Vilvaraya Builders Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

S. MEENAKSHI  
Asstt. Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies

Cuttack-753001, the 24th June 2004

No. ROC/SES-560/2003/683—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, the name of the following Companies have this day been struck off from the register of the Registrar of Companies and are dissolved.

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	15-03449	M/s. V-Tech Constructions Pvt. Ltd.
2.	15-01029	M/s. Sarbeswar Credit (India) Ltd.
3.	15-01308	M/s. Utkal Products Pvt. Ltd.
4.	15-05697	M/s. Utkal Const-crush Pvt. Ltd.
5.	15-03722	M/s. Sheela Construction Pvt. Ltd.
6.	15-02057	M/s. Utkal Brequetting Pvt. Ltd.
7.	15-02998	M/s. Pritam Commercial Pvt. Ltd.
8.	15-00983	M/s. Prachi Inn and Cline Pvt. Ltd.
9.	15-01716	M/s. Konark Agro Industries Pvt. Ltd.
10.	15-04564	M/s. Sevak Finance and Investment Pvt. Ltd.
11.	15-04292	M/s. Shree Finance and Securities Ltd.
12.	15-05026	M/s. Dynasty Marketing Pvt. Ltd.
13.	15-04438	M/s. Orissa Resources Ltd.
14.	15-03494	M/s. Greendge Farm House Ltd.
15.	15-01095	M/s. Utkal Remedies Pvt. Ltd.
16.	15-02138	M/s. Green Valley Poultry Pvt. Ltd.
17.	15-06184	M/s. Alina Foods Pvt Ltd.
18.	15-05827	M/s. J.J. Enterprises Pvt. Ltd.



1	2	3
19.	15-02561	M/s. Project Construction Pvt. Ltd.
20.	15-00412	M/s. Konark Films Pvt. Ltd.
21.	15-00707	M/s. Clayegold Pvt. Ltd.
22.	15-02212	M/s. K.B. Travels Pvt. Ltd.
23.	15-00914	M/s. East Coast Solvant Extraction Pvt. Ltd.
24.	15-01532	M/s. Berhampur Vegetable Market Complex Ltd.
25.	15-01437	M/s. Jayati Travels & Tours Pvt. Ltd.
26.	15-06487	M/s. Dreams Digital Pvt. Ltd.
27.	15-05645	M/s. City Real Tech Pvt. Ltd.
28.	15-01428	M/s. Konark Cold Storage Pvt. Ltd.
29.	15-04002	M/s. Sou & Sow Marine Foods Pvt. Ltd.
30.	15-03866	M/s. Maa Bhabani Freezers Pvt. Ltd.
31.	15-02799	M/s. Mayur Finance and Investment (India) Ltd.
32.	15-01201	M/s. Sriram Wire Galvanizing Pvt. Ltd.
33.	15-02522	M/s. Indian Chromite and Ferro Alloys Pvt. Ltd.
34.	15-00606	M/s. Bhanjs & Co. (Agencies) Pvt. Ltd.
35.	15-00979	M/s. Utkal Cashew Industries Pvt. Ltd.
36.	15-04814	M/s. Bio Friendly Chemical Industries Pvt. Ltd.
37.	15-01821	M/s. Godavari Poly-Products Pvt. Ltd.
38.	15-06335	M/s. Gouri Sankar Kaju Products Pvt. Ltd.
39.	15-05855	M/s. Ayush Medicon Pvt. Ltd.
40.	15-05857	M/s. Viridian Electricity India Pvt. Ltd.
41.	15-04322	M/s. Era Services Pvt. Ltd.
42.	15-04895	M/s. Urmilla Timbers Pvt. Ltd.
43.	15-03851	M/s. Addlax Seafood Pvt. Ltd.
44.	15-05091	M/s. Nilachal Agricultural Company Pvt. Ltd.
45.	15-05650	M/s. Sri Jagannath Infotech Pvt. Ltd.
46.	15-05622	M/s. M.S. Entertainment Pvt. Ltd.
47.	15-03463	M/s. Shiva Rice Industries Pvt. Ltd.
48.	15-03863	M/s. Shree Ram Builders & Developers Pvt. Ltd.
49.	15-05512	M/s. Sahoo Beverages Pvt. Ltd.
50.	15-03721	M/s. Alliance Agrotech Pvt. Ltd.
51.	15-05254	M/s. Apex Electro-Tech Pvt. Ltd.
52.	15-05319	M/s. Saturn Transport & Estate Pvt. Ltd.
53.	15-03812	M/s. Alliance Electrotech Pvt. Ltd.
54.	15-05691	M/s. Richstone Glass & Minerals Pvt. Ltd.
55.	15-01623	M/s. Eastern Insulation Co. Pvt. Ltd.
56.	15-02015	M/s. Golden Knitters Pvt. Ltd.
57.	15-04142	M/s. Marines Pvt. Ltd.
58.	15-05627	M/s. JBS Hotels & Resorts Pvt. Ltd.

1	2	3
59.	15-02551	M/s. ENES Electronics Ltd.
60.	15-05630	M/s. Orisil Pvt. Ltd.
61.	15-02924	M/s. Balasore Housing Finance and Investment Company Pvt. Ltd.
62.	15-04106	M/s. August Projects Pvt. Ltd.
63.	15-05055	M/s. Pradeep Oxygen Pvt. Ltd.
64.	15-04075	M/s. R.K. Software Pvt. Ltd.
65.	15-05978	M/s. Sakuntala Real Estates & Developers Pvt. Ltd.
66.	15-03813	M/s. Arati Shrimps Pvt. Ltd.
67.	15-04651	M/s. Hotel Karuvaki Ltd.
68.	15-01387	M/s. Indu Pvt. Ltd.
69.	15-05826	M/s. Sabitri Marketing Pvt. Ltd.
70.	15-03751	M/s. C. Contact Media Pvt. Ltd.
71.	15-03591	M/s. Moda's Computer Services Pvt. Ltd.
72.	15-04545	M/s. MRP Real Estates Developers Pvt. Ltd.
73.	15-05517	M/s. Sikha Shelters Pvt. Ltd.
74.	15-04420	M/s. Aklovyva Plantations Pvt. Ltd.
75.	15-06345	M/s. Natural Gas Pipeline Ltd.
76.	15-06197	M/s. Gopalpur LNG Ltd.
77.	15-06346	M/s. Gopalpur Fertiliser Ltd.
78.	15-04247	M/s. Eastern India Capital Markets Pvt. Ltd.
79.	15-02926	M/s. Utkal Zinc Metals Pvt. Ltd.
80.	15-01566	M/s. Sewak Housing Pvt. Ltd.
81.	15-02372	M/s. Jyoti Papers and Consultants Pvt. Ltd.
82.	15-05210	M/s. Panchamukhi Construction & Builders Pvt. Ltd.
83.	15-02943	M/s. Perfect Engineers Pvt. Ltd.
84.	15-02408	M/s. G. Engineering Consultancy & Construction Pvt. Ltd.
85.	15-01071	M/s. Chinomy Chemicals Pvt. Ltd.
86.	15-02773	M/s. Agrovet Pvt. Ltd.
87.	15-02707	M/s. Project Harmony Pvt. Ltd.
88.	15-05174	M/s. Cybernet Solution Pvt. Ltd.
89.	15-04170	M/s. RPG Orissa Power Company Ltd.
90.	15-04695	M/s. Gamma Farms and Agros Pvt. Ltd.
91.	15-04217	M/s. Saizbeurg Creations (India) Pvt. Ltd.
92.	15-01015	M/s. B.N. Constructions Pvt. Ltd.
93.	15-02146	M/s. Modern Polypack Industries Pvt. Ltd.
94.	15-04037	M/s. Unipack Ltd.
95.	15-05633	M/s. Funky Entertainment Pvt. Ltd.
96.	15-05461	M/s. Geosoft Technologies (Bhubaneswar) Pvt. Ltd.
97.	15-01908	M/s. Shree Shyam Finance & Investment Co. Pvt. Ltd.
98.	15-01542	M/s. Kalinga Electronics Pvt. Ltd.
99.	15-01488	M/s. Orissa Chromates and Pigments Pvt. Ltd.

1	2	3
100.	15-02227	M/s. Industrial Consortium of Orissa Ltd.
101.	15-05455	M/s. Mahavir Stones & Minerals Pvt. Ltd.
102.	15-03780	M/s. Ganjam Shrimp Hatchery Pvt. Ltd.
103.	15-01672	M/s. Shree Ambica Glass Company Pvt. Ltd.
104.	15-04040	M/s. Kapilash Agro Forestry (I) Ltd.
105.	15-03320	M/s. Subhakamana Services Pvt. Ltd.
106.	15-02014	M/s. Zenith Nylex Pvt. Ltd.
107.	15-05805	M/s. J.K. Consolidated Cements Pvt. Ltd.
108.	15-03634	M/s. Kalinga Marine Export Pvt. Ltd.
109.	15-02001	M/s. Allied Chemicals Pvt. Ltd.
110.	15-04330	M/s. MKN Exports Ltd.
111.	15-01332	M/s. Mulchand Hiralal Pvt. Ltd.
112.	15-05744	M/s. B.D. Dairies Pvt. Ltd.
113.	15-03079	M/s. Orifin Securities Pvt. Ltd.
114.	15-04112	M/s. Mutual Steels Ltd.
115.	15-04624	M/s. Narayan Modern Agro Industries Pvt. Ltd.
116.	15-03281	M/s. R.K. Poultry Pvt. Ltd.
117.	15-03885	M/s. Mahalaxmi Builders Pvt. Ltd.
118.	15-02775	M/s. East Coast Printers Pvt. Ltd.
119.	15-02354	M/s. Gita Associates Pvt. Ltd.
120.	15-03483	M/s. Orienta Green Fields (India) Ltd.
121.	15-04180	M/s. Sri Ganesh Oils Pvt. Ltd.
122.	15-05727	M/s. Balaram Builders Pvt. Ltd.
123.	15-02170	M/s. Purbanchal Constructions and Manufacturers Pvt. Ltd.
124.	15-04770	M/s. Nilgiri Brooding Farm Pvt. Ltd.
125.	15-03615	M/s. Quality Chemical Industries Pvt. Ltd.
126.	15-02891	M/s. Mexi Marketing Pvt. Ltd.
127.	15-03063	M/s. Devi Autos Pvt. Ltd.

1	2	3
128.	15-05720	M/s. Alfa Biltech and Services Pvt. Ltd.
129.	15-02828	M/s. Ual Transport Pvt. Ltd.
130.	15-04940	M/s. Eastern Hotels and Resorts Pvt. Ltd.
131.	15-04901	M/s. Bridge Communications Pvt. Ltd.
132.	15-03557	M/s. Ispat Parivar Finance Ltd.
133.	15-05804	M/s. Dasmon Commercial Trading Pvt. Ltd.
134.	15-04407	M/s. Crafto Chains Ltd.
135.	15-05635	M/s. Adorit Informatics Pvt. Ltd.
136.	15-06413	M/s. Prag Exports Pvt. Ltd.
137.	15-05562	M/s. Rajarani Real Estate & Developers Pvt. Ltd.
138.	15-05488	M/s. Nandighosh Food Products Pvt. Ltd.
139.	15-04992	M/s. Panchadhara Suppliers Pvt. Ltd.
140.	15-03669	M/s. Prime Marketers Pvt. Ltd.
141.	15-04043	M/s. Abhisekh Consultancy and constructions Pvt. Ltd.
142.	15-00672	M/s. Bhanu Engineers Pvt. Ltd.
143.	15-03919	M/s. Orissa Petrochemicals Ltd.
144.	15-01765	M/s. Neo Panax Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
145.	15-04821	M/s. Gajapati Estates Pvt. Ltd.
146.	15-03776	M/s. Simons Aquafarm Pvt. Ltd.

BIBEKANANDA MOHANTY  
Registrar of Companies, Orissa

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following companies

Cuttack-753001, the 25th June 2004

No. ROC/SES-560/2003/686—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of the Section 560 of the Companies Act, 1956, the name of the following Companies have this day been struck off from the register of the Registrar of Companies and are dissolved.

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1.	15-06120	M/s. Grow Green Projects India Ltd.
2.	15-05848	M/s. ABS Solutions Pvt. Ltd.

BIBEKANANDA MOHANTY  
Registrar of Companies, Orissa